



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5—मार्च 11, 2011 (फाल्गुन 14, 1932)

No. 10]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5—MARCH 11, 2011 (PHALGUNA 14, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by  
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2011

(थल सेना विभाग)

सं. 85, दिनांक 31 जनवरी 2011—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं:—

नियमित सेना

पैराशूट रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राज कुमार (जेसी-412608पी), 03 दिसम्बर 2009

सूबेदार विरेन्द्र कुमार (जेसी-412651डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार दालवी भगवान कुण्डलीक (जेसी-412247एफ), 01 जनवरी  
2010

सूबेदार चन्द्र सिंह राठौड़ (जेसी-412398ए), 05 फरवरी 2010

सूबेदार राजबीर, शौर्य चक्र (जेसी-412642पी), 01 फरवरी 2010

सूबेदार मेजर (म्युजिशियन) के रैंक में

सूबेदार राम सिंह कटरोलिया (जेसी-412739ए), 19 अप्रैल 2010

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हरलाल सिंह (जेसी-412778वाई), 01 मई 2008

नायब सूबेदार राकेश चन्द तिवारी (जेसी-413067एल), 01 दिसम्बर  
2009

नायब सूबेदार नन्दा बल्लभ (जेसी-413084एल), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार दीपक सिंह (जेसी-413100एक्स), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार तेजबीर सिंह (जेसी-413122डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार गुरदयाल सिंह (जेसी-413125के), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जेसी-413126एम), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार सुखपाल सिंह (जेसी-413104एन), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-413116एच), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार श्याम किशोर थापा (जेसी-413135एन), 01 जनवरी

2010

नायब सूबेदार कुन्दन सिंह (जेसी-413136डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010	नायब सूबेदार विजयपाल सिंह (जेसी-413213ए), 01 अप्रैल 2010
नायब सूबेदार गुलशन कुमार (जेसी-413028एम), 01 जनवरी 2010	नायब सूबेदार नाथू राम (जेसी-413095एक्स), 01 अप्रैल 2010
नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-413178एच), 01 जनवरी 2010	नायब सूबेदार पूर्ण सिंह (जेसी-413114एक्स), 01 अप्रैल 2010
नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-413186एफ), 01 जनवरी 2010	नायब सूबेदार जी एम के रेड्डी (जेसी-413204वाई), 01 अप्रैल 2010
नायब सूबेदार उदयबीर (जेसी-413197एन), 01 जनवरी 2010	नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-413180ए), 01 मई 2010
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-413198एन), 01 जनवरी 2010	नायब सूबेदार लीला सिंह (जेसी-413200एच), 01 मई 2010
नायब सूबेदार दर्शन सिंह धालीवाल (जेसी-413127पी), 01 जनवरी 2010	नायब सूबेदार सूबे राम (जेसी-413092के), 01 मई 2010
	सूबेदार लिपिक (एस डी) के रैंक में
नायब सूबेदार अमर सिंह चौहान (जेसी-413143एम), 01 जनवरी 2010	नायब सूबेदार जय कृष्ण महान्ता (जेसी-413141एफ), 01 दिसम्बर 2010
नायब सूबेदार दीनादयालन (जेसी-413149एन), 01 जनवरी 2010	नायब सूबेदार एन्टोनी जे (जेसी-413150एच), 01 मई 2010
नायब सूबेदार सावन्त अशोक महादेव (जेसी-413108के), 31 जनवरी 2010	मराठा लाईट इन्फैन्ट्री
	सूबेदार (जी डी) के रैंक में
नायब सूबेदार मोरे विलास मारुती (जेसी-413109एम), 31 जनवरी 2010	नायब सूबेदार शिंदे सदाशिव रामचंद्रा (जेसी-459640पी), 12 मार्च 2010+
नायब सूबेदार राजेश शर्मा (जेसी-413131एक्स), 01 फरवरी 2010	+ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
नायब सूबेदार मोहन चन्द (जेसी-413199वाई), 01 फरवरी 2010	नायब सूबेदार बेडगे मारुती धोंडिराम (जेसी-459627एल), 26 अप्रैल 2010+
नायब सूबेदार भुवनेश्वर यादव (जेसी-413219एफ), 01 फरवरी 2010	+ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
नायब सूबेदार राजवीर सिंह राजपूत (जेसी-413128पी), 01 फरवरी 2010	नायब सूबेदार मानकर लक्ष्मण आनंदा (जेसी-459525पी), 08 अप्रैल 2010+
नायब सूबेदार दिनेश प्रताप सिंह (जेसी-413223के), 01 फरवरी 2010	+ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)
नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-413193वाई), 01 फरवरी 2010	नायब सूबेदार पाटील भारत पांडुरंग (जेसी-459701एफ), 22 अप्रैल 2010+
नायब सूबेदार सुरेश चन्द (जेसी-413146ए), 01 फरवरी 2010	+ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)
नायब सूबेदार अशोक गौतम कान्याल (जेसी-413133एच), 01 मार्च 2010	नायब सूबेदार हाके संभाजी तुकाराम (जेसी-459611ए), 30 अप्रैल 2010+
नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-413132ए), 01 मार्च 2010	+ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
नायब सूबेदार विजय कुमार थापा (जेसी-413181एच), 01 मार्च 2010	नायब सूबेदार अर्जुन नाना शिंदे (जेसी-459641एक्स), 15 मार्च 2010+
नायब सूबेदार अमर माल (जेसी-413154वाई), 01 मार्च 2010	+ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
नायब सूबेदार रणबीर सिंह (जेसी-413047एक्स), 01 मार्च 2010	
नायब सूबेदार निरंजन सिंह (जेसी-413147एच), 01 मार्च 2010	
नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-413112एच), 01 अप्रैल 2010	
नायब सूबेदार सुभाष सिंह (जेसी-413130पी), 01 अप्रैल 2010	

नायब सूबेदार तारमोड़े मोहन दादाराव (जेसी-459642ए), 12 मार्च 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सालुंके दिलिप केशव (जेसी-459697के), 08 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार खाड़े तानाजी गुंडप्पा (जेसी-459765एम), 06 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कुमार गावड़े विठ्ठल रामचंद्रा (जेसी-459775डब्ल्यू), 23 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भागवत दत्तात्रय मारुती (जेसी-459671पी), 16 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अवदेश कुमार वर्मा (जेसी-459717एम), 08 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दीपक जयराम चव्हाण (जेसी-459742एल), 14 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहन रामजी देसाई (जेसी-459791एन), 21 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार वास्कर नंदु जोती (जेसी-459778के), 23 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार इंगले संजय बंडू (जेसी-459647वाई), 26 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कदम विजय जगन्नाथ (जेसी-459648एफ), 20 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पिंगले आनंदराव रामचंद्रा (जेसी-459695वाई), 08 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटील तानाजी सखाराम (जेसी-459720एम), 28 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सपाटे अनिल मुर्लीधर (जेसी-459725एल), 07 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहम्मद अशरफ शेख, एस एम (जेसी-459714वाई), 08 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार यादव दिलीप वसंत (जेसी-459638एक्स), 08 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार विजयकुमार संभाजी पाटील (जेसी-459732एफ), 01 मई 2010

नायब सूबेदार भीकाजी महादेव खोत (जेसी-459755एच), 03 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

सूबेदार लिपिक (एसडी) के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक सोनुने हरिदास रामचंद्रा (जेसी-459632डब्ल्यू), 01 मई 2010+

नायब सूबेदार लिपिक हरीश चंद्र (जेसी-459633वाई), 01 मई 2010+

नायब सूबेदार चुंगडी संजय पांडुरंग (जेसी-459614एन), 15 फरवरी 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हनीफ अली (जेसी-459583वाई), 04 दिसम्बर 2009+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गोरुले संजय शांताराम (जेसी-459698एम), 06 फरवरी  
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
28 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कदम संतोष रामभाऊ (जेसी-459562एच), 19 फरवरी  
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार धुरी नारायण महादेव (जेसी-459603एफ), 25 फरवरी  
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शिंदे नामदेव वासुदेव (जेसी-459616वाई), 16 फरवरी  
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पांडुरंग गवस (जेसी-459605एम), 17 फरवरी 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
22 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटील राजाराम पांडुरंग (जेसी-459689एल),  
05 फरवरी 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
24 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बंडगर बंडु विठोबा (जेसी-459524एम), 09 फरवरी  
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अलविन आर फर्नांडिस (जेसी-459660एच),  
25 फरवरी 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार देठे विलास गणपती (जेसी-459663डब्ल्यू), 02 फरवरी  
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुदेश कुमार (जेसी-459731वाई), 11 मार्च 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
08 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ठोकल प्रकाश पाराजी (जेसी-459631एन), 02 फरवरी  
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दादा नरुटे (जेसी-459666के), 25 फरवरी 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार वीरेशा कुरहट्टी (जेसी-459690ए), 23 फरवरी 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रकाश झेंडे (जेसी-459716के), 24 फरवरी 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
23 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटील मधुकर तानाजी (जेसी-459782एम), 16 मार्च  
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सत्तप्पा कोटबागी (जेसी-459785ए), 11 मार्च 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार केसरकर पंडित रामू (जेसी-459786एच), 11 मार्च  
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

सूबेदार लिपिक (एसडी) के रैंक में

नायब सूबेदार/लिपिक क्रिस्टी फ्रांसिस (जेसी-459609एच), 01 फरवरी  
2010

नायब सूबेदार/लिपिक चव्हाण राजाराम शंकर (जेसी-459610एक्स),  
19 मार्च 2010+

+(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार/लिपिक तुपसौंदर्य अशोक रामचंद्र (जेसी-459626एच),  
02 मार्च 2010+

+(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

## सूबेदार (आरटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (आरटी) श्री कृष्ण पाठक (जेसी-458570पी),  
01 फरवरी 2010

## पंजाब रेजिमेन्ट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुखवन्त सिंह (जेसी-429302एच), 01 मई 2010

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-430282एम), 01 सितम्बर  
2008

नायब सूबेदार शेर सिंह ठाकुर (जेसी-430325एन), 27 दिसम्बर  
2009

नायब सूबेदार महावीर प्रसाद (जेसी-430248एम), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार देविन्दर सिंह (जेसी-430018वाई), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-430135के), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-430264के), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-430294एफ), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-430195वाई), 01 मई 2010

नायब सूबेदार शादी लाल (जेसी-430223ए), 01 मई 2010

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-430225एल), 01 मई 2010

नायब सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-430380एम), 01 मई 2010

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जेसी-430322एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-430196एफ), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-430244डब्ल्यू), 01 मई 2010

नायब सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-430171पी), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार कुलदीप कुमार (जेसी-430304ए), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-430328के), 01 अप्रैल 2010

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार धरम पाल (जेसी-429453एफ), 01 मार्च 2010

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार तरसेम लाल (जेसी-430206ए), 01 नवम्बर 2009

नायब सूबेदार श्याम सुन्दर (जेसी-429907के), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-429909पी), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार जगजीत सिंह (जेसी-430003डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार गुरपाल सिंह (जेसी-430019एफ), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार फकीर चन्द (जेसी-430219एक्स), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-430116वाई), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-430179एफ), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार हुकम चन्द (जेसी-430194डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-430284एक्स), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार नरेश सिंह (जेसी-430250के), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-430290एल), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार कलयान चन्द (जेसी-430261डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-429872वाई), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार सवरन सिंह (जेसी-430013ए), 21 जनवरी 2010

नायब सूबेदार सावा राम (जेसी-430049वाई), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-430062एच), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार केवल कृष्ण (जेसी-430181वाई), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार हीरा लाल (जेसी-430205एक्स), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार पुरन चन्द (जेसी-430360वाई), 01 जून 2009

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-430374वाई), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार सतीश कुमार कटोच (जेसी-430375एफ), 01 फरवरी  
2010

## 1 जी आर

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) जनक चंद राजन (जेसी-602155एल) अब सूबेदार  
मेजर (लिपिक), 01 जनवरी 2010

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पुष्पा बहादुर गुरुंग (जेसी-602738एन), 04 दिसम्बर  
2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
04 नवम्बर 2009)

नायब सूबेदार (लिपिक) श्री चंद सिंह (जेसी-602700के), 01 दिसम्बर  
2009

[सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 24 नवम्बर 2009]

नायब सूबेदार (लिपिक) चेत राम सिंह (जेसी-602702पी),  
11 दिसम्बर 2009

[सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009]

नायब सूबेदार मन बहादुर पुन (जेसी-602740एल), 19 दिसम्बर  
2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009)

नायब सूबेदार गुप्ता बहादुर गुरुंग (जेसी-602759के), 07 दिसम्बर 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009)

नायब सूबेदार हेम बहादुर गुरुंग (जेसी-602767एच), 23 दिसम्बर 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009)

नायब सूबेदार पुरना बहादुर राना (जेसी-602723एल), 23 दिसम्बर 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009)

नायब सूबेदार चक्रा बहादुर थापा (जेसी-602781पी), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार कुल बहादुर श्रेष्ठा (जेसी-602782एक्स), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार केम बहादुर आले (जेसी-602773डब्ल्यू), 21 जनवरी 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जनवरी 2010)

नायब सूबेदार (लिपिक) रजेंद्र सिंघा (जेसी-602710एन), 15 जनवरी 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010)

नायब सूबेदार मनी कुमार पुन (जेसी-602725डब्ल्यू), 26 मार्च 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010)

लद्दाख स्काऊट्स

सूबेदार (जीडी) के पद पर

नायब सूबेदार नावंग छुल्लिम (जेसी-588345के), 06 मई 2009/01 मई 2009\*

नायब सूबेदार सोनम डोजे (जेसी-588350पी), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार टाशि नम्मिअल (जेसी-588420एच), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार थुकजय पल्जोर (जेसी-588422एन), 14 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार गिलिक रबिआस (जेसी-588325डब्ल्यू), 05 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार छेरिंग स्तंजिन (जेसी-588425एफ), 07 सितम्बर 2009/01 सितम्बर 2009\*

नायब सूबेदार छेवांग डोजे (जेसी-588442एफ), 07 सितम्बर 2009/01 सितम्बर 2009\*

नायब सूबेदार पल्दन डवा (जेसी-588356डब्ल्यू), 31 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-588391वाई), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार टाशि नुर्बु, एस एम (जेसी-588443के), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार थुकजय रिंचेन (जेसी-588393के), 05 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार सेतन टाशि (जेसी-588398एच), 19 फरवरी 2010/30 दिसम्बर 2009\*

नायब सूबेदार सोनम नुर्बु (जेसी-588314एच), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार घुलाम अब्बास (जेसी-588346एम), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार छेवांग तोब्दन (जेसी-588444एम), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार टाशि नम्मिअल (जेसी-588445पी), 02 मार्च 2010/01 मार्च 2010\*

नायब सूबेदार छेवांग रिगिज़न (जेसी-588383ए), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार तर्गिआस चोसपेल (जेसी-588385एल), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार लक्सपर दुंदुप (जेसी-588386एन), 10 मार्च 2010

नायब सूबेदार इशे चेतन (जेसी-588353एच), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार स्कर्मा टाशि (जेसी-588376के), 01 मई 2010

नायब सूबेदार रिगिज़न चेप्ल (जेसी-588379एक्स), 01 मई 2010

सूबेदार क्लर्क (जीडी) के पद पर

नायब सूबेदार/क्लर्क अशोक कुमार सरमा (जेसी-588359के), 19 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार/क्लर्क कुलदीप सिंह (जेसी-588360वाई), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (जीडी) के पद पर

हवलदार नवांग नम्मिअल (सं. 9923599पी अब जेसी-588502एल), 15 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009\*

हवलदार समंला अंगदुस (सं. 9923676वाई अब जेसी-588503एन), 16 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009\*

हवलदार लोब्जंग टाशि (सं. 9923809के अब जेसी-588509पी), 12 मई 2009/17 अप्रैल 2009\*

हवलदार स्कर्मा छेरिंग (सं. 9923119ए अब जेसी-588510के), 25 मई 2009/01 मई 2009\*

हवलदार छेरिंग स्तोब्दन (सं. 9923250एक्स अब जेसी-588511एम), 01 जुलाई 2009

हवलदार सेतन टुंदुप (सं. 9924038एम अब जेसी-588512पी),  
14 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

हवलदार छेरिंग टाशि (सं. 9923938के अब जेसी-588513एक्स),  
14 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

हवलदार सोनम पल्जोर (सं. 9924029एल अब जेसी-588514ए),  
01 अगस्त 2009/02 जुलाई 2009\*

हवलदार सोनम स्तोबाल (सं. 9924243एन अब जेसी-588515एच),  
01 अगस्त 2009

हवलदार मोहम्मद हनिफ (सं. 9923871डब्ल्यू अब जेसी-588516एल),  
01 अगस्त 2009

हवलदार गुर्मित डोजे (सं. 9923787डब्ल्यू अब जेसी-588517एन),  
01 अगस्त 2009

हवलदार टाशि फुंचोक (सं. 9923815एक्स अब जेसी-588518डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2009

हवलदार छेवांग नोर्बू (सं. 9923670एक्स अब जेसी-588519वाई),  
05 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009\*

हवलदार छेवांग टाशि (सं. 9923956एम अब जेसी-588520एन),  
01 अगस्त 2009

हवलदार सेतन गल्तेन (सं. 9924083वाई अब जेसी-588521डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार निर्मल चंद (सं. 9923627डब्ल्यू अब जेसी-588522वाई),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार बाग चंद (सं. 9923823डब्ल्यू अब जेसी-588523एफ),  
01 अक्टूबर 2009

हवलदार स्तंजिन जंग्बो (सं. 9923862पी अब जेसी-588524के),  
01 अक्टूबर 2009

हवलदार छेरिंग फुंचोक (सं. 9923889एम अब जेसी-588525एम),  
01 अक्टूबर 2009

हवलदार मुरुप डोजे (सं. 9924626ए अब जेसी-588526के),  
07 फरवरी 2010/08 मई 2009\*

हवलदार छेरिंग स्तोबन (सं. 9923887एफ अब जेसी-588527एक्स),  
01 नवम्बर 2009

हवलदार सोनम फुंचोक (सं. 9923958एक्स अब जेसी-588529एच),  
19 फरवरी 2010/30 दिसम्बर 2009\*

हवलदार रिगिज़न नमिगअल (सं. 9923782एक्स अब जेसी-588532एच),  
03 मार्च 2010/01 मार्च 2010\*

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 9923847ए अब जेसी-588533एल),  
01 मार्च 2010

हवलदार टाशि अंगदुस (सं. 9923892एम अब जेसी-588534एन),  
01 मार्च 2010

हवलदार लछम सिंह (सं. 9923631वाई अब जेसी-588535डब्ल्यू),  
01 मार्च 2010

हवलदार छेवांग स्तोबिगआस (सं. 9924004वाई अब जेसी-588536वाई),  
01 मार्च 2010

हवलदार घुलाम हुसैन (सं. 9924608एक्स अब जेसी-588537एफ),  
01 मार्च 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के पद पर

हवलदार क्लर्क दिविंद्र सिंह पठानिया (सं. 15359573एफ अब  
जेसी-588528ए), 25 जनवरी 2010/19 दिसम्बर 2009\*

हवलदार क्लर्क छेवांग नमिगअल (सं. 9923644डब्ल्यू  
जेसी-588530एक्स), 01 मार्च 2010

\*वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जायेगी।

कुमाऊं रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार अजय कुमार यादव (जेसी-539450डब्ल्यू), 07 दिसम्बर  
2009/26 नवम्बर 2009\*

\*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 26 नवम्बर 2009 से दी गई है)

सूबेदार देवराज सिंह (जेसी-539469पी), 01 जनवरी 2010

सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-539534के), 12 जनवरी 2010/  
01 जनवरी 2010\*

\*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

सूबेदार बलबीर चन्द (जेसी-539217एच), 13 जनवरी 2010

सूबेदार आनन्द सिंह (जेसी-539095के), 04 फरवरी 2010/01 फरवरी  
2010\*

\*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 फरवरी 2010 से दी गई है)

सूबेदार कुन्दन सिंह (जेसी-539440एम), 06 अप्रैल 2010/01 अप्रैल  
2010\*

\*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 अप्रैल 2010 से दी गई है)

नागा रेजिमेन्ट

सूबेदार खेम बहादुर गुरुंग (जेसी-590092वाई), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार हेवितो सेमा (जेसी-590025एन), 02 फरवरी 2010/  
01 फरवरी 2010\*

\*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 फरवरी 2010 से दी गई है)

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) दिनेश चन्द्रा (जेसी-539985के),  
06 फरवरी 2009/01 जनवरी 2009\*

\*[सूबेदार (लिपिक) के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2009 से दी गई है]

नायब सूबेदार (लिपिक) बृजेश्वर सिंह (जेसी-540003वाई),  
29 जून 2009/07 जून 2009\*

\*[सूबेदार (लिपिक) के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना दिनांक 07 जून 2009 से दी गई है]

नायब सूबेदार (लिपिक) बलबीर सिंह (जेसी-540004एफ),  
08 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

\*[सूबेदार (लिपिक) के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2009 से दी गई है]

नायब सूबेदार (लिपिक) सतीश चन्द्रा (जेसी-540005के),  
01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) कुशल सिंह (जेसी-540033डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) खुशल सिंह (जेसी-540048वाई),  
23 सितम्बर 2009/12 सितम्बर 2009\*

\*[सूबेदार (लिपिक) के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना दिनांक 12 सितम्बर 2009 से दी गई है]

नायब सूबेदार (लिपिक) सनत कुमार मण्डल (जेसी-540056एक्स),  
18 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

\*[सूबेदार (लिपिक) के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2009 से दी गई है]

नायब सूबेदार (लिपिक) सोव नाथ यादव (जेसी-540075एच),  
23 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

\*[सूबेदार (लिपिक) के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2009 से दी गई है]

नायब सूबेदार (लिपिक) अशोक कुमार सक्सेना (जेसी-540119पी),  
18 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009\*

\*[सूबेदार (लिपिक) के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2009 से दी गई है]

नायब सूबेदार (लिपिक) प्रेम चन्द्रा (जेसी-540120के), 01 दिसम्बर  
2009

नायब सूबेदार (लिपिक) जितेन्द्र कुमार (जेसी-540132वाई),  
01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) पदम सिंह (जेसी-540133एफ), 01 जनवरी  
2010

नायब सूबेदार (लिपिक) ओम प्रकाश (जेसी-540134के),  
01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) सुकंता कुमार राणा (जेसी-540164एफ),  
01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) गुरनाम सिंह (जेसी-540177वाई),  
01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) सत्य पाल यादव (जेसी-540178एफ),  
12 मार्च 2010/01 मार्च 2010\*

\*[सूबेदार (लिपिक) के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2010 से दी गई है]

नायब सूबेदार (लिपिक) निजाम कठगत खान (जेसी-540179के),  
01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) ज्वाला प्रसाद मौर्या (जेसी-540109एल),  
02 अप्रैल 2010/08 दिसम्बर 2009\*

\*[सूबेदार (लिपिक) के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना दिनांक 08 दिसम्बर 2009 से दी गई है]

नायब सूबेदार (लिपिक) हरिश सिंह बिष्ट (जेसी-540180वाई),  
01 अप्रैल 2010

नियमित सेना इन्फैंट्री-जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैंट्री

सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-592554पी), 05 अप्रैल 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 अप्रैल 2010 से वरिष्ठता दी  
जाती है)

सूबेदार कुलदीप राज (जेसी-592682डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 अप्रैल 2010 से वरिष्ठता दी  
जाती है)

सूबेदार बिशन दास (जेसी-592758एल), 01 मई 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 मई 2010 से वरिष्ठता दी  
जाती है)

सूबेदार रविन्दर सिंह (जेसी-592703एफ), 05 अप्रैल 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 अप्रैल 2010 से वरिष्ठता दी  
जाती है)

इन्फैंट्री-11 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार (संगीतकार) कृष्णा कुमार विश्वकर्मा (जेसी-634484पी),  
23 जून 2010



## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार (संगीतकार) अशोक राई (जेसी-634843एक्स),  
24 जून 2010

नायब सूबेदार (धार्मिक गुरु) सतीश कुमार श्रोत्रिया  
(जेसी-634289एक्स), 01 जुलाई 2010

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

सूबेदार मेजर जीडी के रैंक में

सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-579832एच), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल  
2010

सूबेदार देवेन्द्र कुमार (जेसी-579807के), जैक राईफल्स, 01 मई 2010

सूबेदार जीडी के रैंक में

नायब सूबेदार अश्वनी कुमार (जेसी-580530एच), जैक राईफल्स,  
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार कीकर सिंह (जेसी-580533डब्ल्यू), जैक राईफल्स,  
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार ध्यान सिंह (जेसी-580555पी), जैक राईफल्स,  
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार बिक्रम जीत (जेसी-580644एन), जैक राईफल्स,  
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-580433एल), जैक राईफल्स,  
01 मार्च 2010

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-580556एक्स), जैक राईफल्स,  
01 मार्च 2010

नायब सूबेदार मोहम्मद अनवर काजी (जेसी-580586पी), जैक  
राईफल्स, 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार नर सिंह दास (जेसी-580348एच), जैक राईफल्स,  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार शक्ति सिंह (जेसी-580355वाई), जैक राईफल्स,  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार देस राज (जेसी-580507पी), जैक राईफल्स,  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार नसीब सिंह (जेसी-580534वाई), जैक राईफल्स,  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार भगत राम बंसल (जेसी-580608एच), जैक राईफल्स,  
07 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार शेर बहादुर (जेसी-580613एन), जैक राईफल्स,  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार गोविंद सिंह (जेसी-580675एन), जैक राईफल्स,  
30 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-580696के), जैक राईफल्स,  
05 मई 2010

सूबेदार लिपिक एस डी के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) प्रशंकर सिंह ढडवाल (जेसी-580736ए),  
जैक राईफल्स, 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) राजिंद्र कुमार (जेसी-580748पी), जैक  
राईफल्स, 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) बिक्रम सिंह (जेसी-580749एक्स), जैक  
राईफल्स, 01 मार्च 2010

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार पिरथी सिंह (जेसी-499002वाई), 01 जून 2010

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी-499499एफ), 07 अप्रैल 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
09 मार्च 2010)

नायब सूबेदार सुरिन्द्रपाल सिंह (जेसी-499717पी), 22 मई 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010)

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-499925के), 29 अक्टूबर 2009  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2009)

नायब सूबेदार बक्शीश सिंह (जेसी-499729के), 12 अक्टूबर 2009  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2009)

नायब सूबेदार गुरदीप सिंह (जेसी-499751पी), 12 अक्टूबर 2009  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2009)

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-499783एक्स), 16 जून 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2010)

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-499694वाई), 12 मई 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
13 अप्रैल 2010)

नायब सूबेदार सविन्दर सिंह (जेसी-499795एम), 06 जुलाई 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2010)

नायब सूबेदार गजिन्दर सिंह (जेसी-499819एल), 07 जून 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 मई 2010)

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-499685एक्स), 26 जून 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010)

नायब सूबेदार जसविंदर सिंह (जेसी-499690एच), 28 जून 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010)

नायब सूबेदार रनजीत सिंह (जेसी-499706एच), 28 जून 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जून 2010)

#### सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) बिक्रम केशरी बिशनोई (जेसी-499744वाई), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) शिव कुमार (जेसी-499724एल), 01 जुलाई 2010

#### सूबेदार के रैंक में

सूबेदार अंग्रेज सिंह (जेसी-499715के), 15 अप्रैल 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मार्च 2010)

सूबेदार अजायब सिंह (जेसी-499522के), 14 अप्रैल 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010)

सूबेदार पशोरा सिंह (जेसी-499574ए), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार गुरिन्दर सिंह (जेसी-499629वाई), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार जगराज सिंह (जेसी-499787एन), 10 मई 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010)

सूबेदार जागीर सिंह (जेसी-499497डब्ल्यू), 01 मई 2010

#### गढ़वाल राइफल्स

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-529287एन), 07 अप्रैल 2010\*  
\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

सूबेदार तेन सिंह नेगी (जेसी-529550एन), 01 अप्रैल 2010

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-530524वाई), 27 मार्च 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रधुबीर सिंह (जेसी-530290ए), 25 फरवरी 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार समरजीत (जेसी-530377एफ), 20 फरवरी 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बलबीर सिंह नेगी (जेसी-530443वाई), 20 फरवरी 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम चरन सिंह (जेसी-530428के), 24 मार्च 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्यार सिंह (जेसी-530447पी), 16 अप्रैल 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-530277डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दलबीर सिंह रावत (जेसी-530601एच), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार साबर सिंह (जेसी-530418ए), 20 अप्रैल 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भगत सिंह (जेसी-530317एम), 20 अप्रैल 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सूरेंद्र सिंह (जेसी-530432एम), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-530444एफ), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार साबर सिंह (जेसी-530387एल), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार प्रमोद सिंह रावत (जेसी-530451एक्स), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार सूरेंद्र दत्त (जेसी-530452ए), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार विरेन्द्र कुमार (जेसी-530475एफ), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार सते सिंह (जेसी-530446एम), 01 मई 2010  
 नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-530433पी), 06 मई 2010\*  
 \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)  
 नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-530204के), 01 मई 2010  
 नायब सूबेदार माहाबीर सिंह (जेसी-530231एन), 01 मई 2010  
 सूबेदार (लिपिक) के रैंक में  
 नायब सूबेदार (लिपिक) मदन सिंह (जेसी-530140के), 01 अप्रैल 2010  
 नायब सूबेदार (लिपिक) राम लाल (जेसी-530134डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010  
 नायब सूबेदार (लिपिक) राम कुमार ओला (जेसी-530141एम), 01 अप्रैल 2010

#### डोगरा रेजिमेंट

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार श्याम सुंदर (जेसी-520009वाई), 01 जून 2010

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुरिन्दर कुमार (जेसी-520739के), 19 मई 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से)  
 नायब सूबेदार सुधीर पॉल (जेसी-520607डब्ल्यू), 29 मार्च 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से)  
 नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-520474एल), 21 मई 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार हकीकत सिंह (जेसी-520606एन), 24 अप्रैल 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार हेम राज (जेसी-520627के), 10 मई 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार सीता राम (जेसी-520625वाई), 13 अप्रैल 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार गगन सिंह (जेसी-520626एच), 13 अप्रैल 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार उधम सिंह (जेसी-520672डब्ल्यू), 05 मई 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार बेली सिंह (जेसी-520648ए), 10 मई 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-520675के), 13 अप्रैल 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-520676एम), 24 अप्रैल 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-520677पी), 19 मई 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार रविन्दर कुमार (जेसी-520660एफ), 19 मई 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-520679ए), 16 मई 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार सिमर सिंह (जेसी-520668एन), 12 अप्रैल 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-520686डब्ल्यू), 08 मई 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार बलिन्द्र सिंह (जेसी-520770डब्ल्यू), 05 जून 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-520811पी), 02 जून 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार सुभाष चंद (जेसी-520812एक्स), 28 मई 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)  
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-520813ए), 08 जून 2010+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार कमल सिंह (जेसी-520817डब्ल्यू), 28 मई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-520871के), 28 मई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार ब्रह्म लाल शर्मा (जेसी-520890पी), 02 जून 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार दिलावर सिंह (जेसी-520891एक्स), 28 मई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार भुवनेश कुमार (जेसी-520892ए), 02 जून 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार किशोर कुमार (जेसी-520666एच), 07 मई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
05 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार सरजित सिंह (जेसी-520667एल), 10 मई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2010 से)

नायब सूबेदार राम पाल (जेसी-520692के), 02 मई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2010 से)

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-520695एक्स), 11 मई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2010 से)

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-520698एल), 01 मई 2010

नायब सूबेदार अश्वनी कुमार (जेसी-520708के), 01 मई 2010

नायब सूबेदार रोमेश कुमार (जेसी-520742के), 25 मई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2010 से)

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार/लिपिक हंस राज चम्बयाल (जेसी-519833एफ), 01 जून  
2010

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बलबीर सिंह काजत (जेसी-519922ए), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार देस राज (जेसी-519879के), 05 मई 2010+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अजय सिंह (जेसी-520693एम), 30 अप्रैल 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार बिधि सिंह (जेसी-520597एक्स), 28 अप्रैल 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2009 से)

नायब सूबेदार चन्दर भान सिंह जसवाल (जेसी-520757एम),  
03 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2009 से)

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-520598ए), 28 अप्रैल 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2010 से)

नायब सूबेदार केवल दास (जेसी-520640एन), 28 अप्रैल 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2010 से)

नायब सूबेदार सुदेश कुमार (जेसी-520450एफ), 24 अप्रैल 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार किरपाल सिंह (जेसी-520472ए), 30 अप्रैल 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-520548पी), 24 अप्रैल 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-520473एच), 24 अप्रैल 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार यशवन्त सिंह (जेसी-520570ए), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार शाम लाल (जेसी-520529के), 21 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार अश्वनी कुमार (जेसी-520591डब्ल्यू), 18 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार लखबीर सिंह (जेसी-520556एन), 17 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-520557डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-520656वाई), 20 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार जन्म चन्द चम्बयाल (जेसी-520646पी), 17 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-520630के), 28 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-520631एम), 28 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार देविन्द्र सिंह (जेसी-520674एफ), 21 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार सोम दत्त शर्मा (जेसी-520714एक्स), 01 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-520678एक्स), 03 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-520649एच), 17 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-520680पी), 23 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार राम सिंह सैनी (जेसी-520663पी), 26 अप्रैल 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार हुकम चन्द (जेसी-520664एक्स), 23 अप्रैल 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-520763ए), 03 मई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार जय करन (जेसी-520639वाई), 03 मई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से)

नायब सूबेदार सेना राम (जेसी-520628एम), 01 मई 2010

एस अशरफ  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 86, दिनांक 31 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार राकेश चन्द शर्मा (जेसी-841564वाई), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार शिव शंकर लाहा (जेसी-841577डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार जी राधा कृष्णन (जेसी-841578वाई), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार बाबु लाल पाल (जेसी-841579एफ), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार रमेशन एस (जेसी-841580डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार रामजी लाल (जेसी-841583के), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार पदम बाहादुर गुरुंग (जेसी-612422पी), 01 नवम्बर 2010

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

## वायु शाखा

सं. 87, दिनांक 31 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :--

## भारतीय वायु सेना

## उड़न शाखा

## ग्रुप कैप्टन (उड़न) के मूल रैंक में

रैंक, नाम, संख्या, शाखा और दिनांक

ग्रुप कैप्टन वी रवि (18100), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन आर वृधाचेलम (18101), उ(पा), 02 मार्च 2009  
(काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008)

ग्रुप कैप्टन डब्ल्यु वी आर राव (18111), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन ए आई जोशी (18112), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन एस डब्ल्यु बोर्ले (18118), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन टी ए दयासागर (18122), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन के एच सुरेश (18124), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन एस के मित्तल (17472), उ(पा), 16 मार्च 2009  
(काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008)

ग्रुप कैप्टन एम सी मिश्रा (17715), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन जे एस होरा (18105), उ(पा), 01 अप्रैल 2009  
(काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008)

ग्रुप कैप्टन डी के तनेजा (18119), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन यू मलिक (18123), उ(पा), 16 मार्च 2009 (काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008)

ग्रुप कैप्टन आर जी के कपूर (18253), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन जे एस जौहर (18254), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन एम आर आनन्द (18257), उ(पा), 02 मार्च 2009  
(काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008)

ग्रुप कैप्टन ए राठौर (18258), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन एस के मोहला (18259), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन एन तिवारी (18270), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन ए के सेन (18278), उ(पा), 01 दिसम्बर 2008  
(काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008)

ग्रुप कैप्टन एस बनर्जी (18279), उ(पा), 16 मार्च 2009 (काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008)

ग्रुप कैप्टन ए जोशी (18280), उ(पा), 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन बी वी उपाध्याय (18281), उ(पा), 16 मार्च 2009  
(काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008)

ग्रुप कैप्टन जी सी मिश्रा (18288), उ(पा), 07 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन एस के इन्दोरिया (18296), उ(पा), 01 दिसम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन एस सी डिसूजा (18299), उ(पा), 01 दिसम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन बी साजू (18300), उ(पा), 24 दिसम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन ए दिक्षीत (18558), उ(पा), 01 मार्च 2009

ग्रुप कैप्टन बी बालाचन्द्रन (18561), उ(पा), 02 मार्च 2009

ग्रुप कैप्टन एन के दहिया (18567), उ(पा), 02 मार्च 2009

ग्रुप कैप्टन डी वी वानी (18568), उ(पा), 02 मार्च 2009

ग्रुप कैप्टन एम मोहन (18570), उ(पा), 02 मार्च 2009

ग्रुप कैप्टन सी एस मलिक (18576), उ(पा), 02 मार्च 2009

ग्रुप कैप्टन के आर ए राव (18577), उ(पा), 02 मार्च 2009

ग्रुप कैप्टन वी भलोत्रा (18579), उ(पा), 02 मार्च 2009

ग्रुप कैप्टन यू कुमार (18582), उ(पा), 01 अप्रैल 2009

ग्रुप कैप्टन के जे एस दीहोत (18585), उ(पा), 01 अप्रैल 2009

ग्रुप कैप्टन ए एस पठानिया (18594), उ(पा), 01 मई 2009

ग्रुप कैप्टन एस कौरा (18598), उ(पा), 01 मई 2009

ग्रुप कैप्टन अनिल सिंह (18599), उ(पा), 01 जून 2009

ग्रुप कैप्टन ई के प्रसाद (18600), उ(पा), 01 जून 2009

ग्रुप कैप्टन ए आर गोरे (18783), उ(पा), 25 सितम्बर 2009  
(काल्पनिक वरीयता 01 अगस्त 2009)

ग्रुप कैप्टन एस श्रीनिवास (18787), उ(पा), 01 सितम्बर 2009

ग्रुप कैप्टन ए शुक्ला (18793), उ(पा), 01 सितम्बर 2009

ग्रुप कैप्टन बी एम त्यागी (18795), उ(पा), 02 सितम्बर 2009

ग्रुप कैप्टन पी कुमार (18796), उ(पा), 03 सितम्बर 2009

ग्रुप कैप्टन आर सिन्हा (18797), उ(पा), 01 नवम्बर 2009

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

-----

वायु सेना

सं. 88, दिनांक 31 जनवरी 2011--माननीय राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

स्क्वॉ ली से विंग कमांड के मूल रैंक पर

ए ई (एम) शाखा

थॉमस वी (24647), वी एस मधाबवी (24653), एस बी एच रेड्डी (24648), खान एम ए (24659), श्रीधर के (25058), एस विनय

कुमार (24650), पी अब्राहम मार्टिन (24649), तरहलकर पी पी (24658), सिंह एस (24657), नरूला टी एस (24656), वी माटिया (24655), सौरभ सक्सेना (24651), निशांत हूवय्या के (24663), वी महिन्द्रकर (24662), हृदेश साहू (24661), 23 मई 2009 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

के एम जयंत (24666), केशव हरित (24685), राकेश गौतम (24671), अरिन्दम सरकार गोलडी (24672), ए आई जॉर्ज (24673), सुरजीत सिंह कन्याल (24704), भट्टचर्जी के (24678), ए के कन्वेर्ला (24708), जी वी प्रह्लाद (24677), गुप्ता एस के (24676), मनोज कुमार शर्मा (24675), पी सराफ (24674), 23 मई 2009 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

सिंह ए (24760), शिव प्रसाद बी रंदाद (24757), हरजिन्दर सिंह (24762), राहुल सैनी (24761), देवरंकर पी डब्ल्यू (24755), महिन्द्र वाई जोशी (24754), उमंग सिंह सम्याल (24751), संजय एस देसाई (24742), मनीष कुमार (24741), अजय एम महाजन (24766), अदनान तौकीर (24765), गुप्ता सी पी (24764), महिन्द्रकर वी एन (24750), देवेन्द्र कुमार (24767), शेखों जे एस (24739), एस एस सिद्धू (24748), जितेन्द्र फर्सवान (24777), धर्मेन्द्र सिंह (24756), एस बालाचन्द्र (24749), एफ बी इरफान अंसारी (24763), अतुल मधुकरराव (24759), पी पी बोरगोहैन (24758), गुरुराज नारायणप्पा सांगा (24747), सज्जा सुनील (24774), मन्तिना सुब्बा राजू (24773), महेश गुरुसिदप्पा एम्मी (24772), शर्मा वाई के (24745), एस एस पटनायक (24771), मदाक्कुनी बिजय (24744), ए के नायर (24770), रेड्डी डी वी जी (24865), चेन्ना रेड्डी वी आर सी एस (24863), रवि तन्मेला (24864), स्वर्णकार योगेश (24743), परसराम पी के सी (24776), विक्रम वी देशपाण्डे (24854), 22 नवम्बर 2009 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

अमरेन्द्र कुमार ठाकुर (24791), पवन गुप्ता (24784), मनोहर संजय के वेंकट (24783), एम एल श्रीप्रसाद (24782), अहमद आशी (24781), एस आर वारे (24788), संदीप जैन (24787), मुरलीधरन ए आर (24833), जैन डी (24832), के एस राजीव (24819), संजीव कुमार शाह (24815), एस के सरकार (24814), संजय प्रभाकर पूर्णिक (24813), एस सैथिल कुमार (24804), कार एस के (24803), संजीव रंजन (24821), एस आर ए किरण कुमार (24820), अरिन्दम मजूमदार (24818), विकाश (24825), जे आनंद कुमार (24805), रवीश रंजन (24779), मनप्रीत पाल सिंह (24812), सोमना ए एन (24810), राव के एस (24866), अमुलुरू चन्द्रशेखर (25279), राकेश थाथा (24826), कार्तिकेयन ए (24801), के एस चारी (24786), कंवरपाल सिंह (25280), वर्मा ए (24862), प्रदीप सिंह (24857), जे ऐंजल रूबेन (24808), देबब्रत बिस्वास (24797), राजीव कुमार (24827), अरविन्द आर (24796), अरूण कौशिक (24823), तिरुमारन एम (25277), रवीन्द्र ए आनंद (25278), अनिर्बाण बैनर्जी (24822), अभिनय राजाराम जाठर (24817), अभय सी देशपाण्डे (24795), मोहन्ती एस (24816), वी भण्डारी (24800), एस के शाही (24798), सी पार्थीबन (24799), वी कृष्ण कुमार (24809), एस एस वालासंग (24790), मनीष सक्सेना (24794), त्रिपाठी आर के (24792),

एस वी कुलकर्णी (24811), रीतेश तिवारी (24789), चन्द्र दीप (24824), मुनि कुमार पी (24802), 22 नवम्बर 2009 से प्रभावी

एन विजय कुमार  
विंग कमांडर  
संयुक्त निदेशक  
कार्मिक अफसर-3(डी)

वायु सेना

सं. 89, दिनांक 1 फरवरी 2011--माननीय राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

स्क्वॉ लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक पर

एफ (पी) शाखा

राहुल गुप्ता (22944), 26 सितम्बर 2009 से प्रभावी (नोशनल सीनियरिटी 18 जून 2007 से प्रभावी)

विक्रम गोविन्द (23722), एम नायर (23725), 16 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

फ्ला लेफ्टि से स्क्वॉडन लीडर के मूल रैंक पर

एफ (पी) शाखा

एन रावत (27199), जी अवस्थी (27203), एम हूडा (27204), एस एफ हक् (27226), 21 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

अल्प-सेवा कमीशन

आर खरे (27294), 21 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

वी एम मार्टीकर  
विंग कमांडर  
संयुक्त निदेशक  
कार्मिक अफसर-3(डी)

वायु सेना

सं. 90, दिनांक 1 फरवरी 2011--माननीय राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

फ्ला लेफ्टि से स्क्वॉडन लीडर के मूल रैंक पर

एफ (पी) शाखा

अनिल रेप्सवाल (26971), 30 जून 2009 से प्रभावी

(22 जून 2008 से प्रभावी, राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ)

एन कुमार (27220), 22 नवम्बर 2009 से प्रभावी

(21 दिसम्बर 2008 से प्रभावी, राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ)

वी मनोज (27227), 13 फरवरी 2009 से प्रभावी  
(21 दिसम्बर 2008 से प्रभावी, राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ)  
अल्प-सेवा कमीशन

ए ई (एल) शाखा

अजु कुमार रेवी (26896), 06 मार्च 2009 से प्रभावी  
(07 जनवरी 2008 से प्रभावी, राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ)

एफ (पी) शाखा

ए ए निसल (25862), 18 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

पी बोबडे (26999), 22 जून 2008 से प्रभावी

पी झा (26748), 17 जुलाई 2009 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

ए एस चौहान (26870), 25 जुलाई 2008 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

अल्प-सेवा कमीशन

फ्ला लेफ्ट से स्क्वॉ लीडर के मूल रैंक पर

एफ (पी) शाखा

वी शर्मा (27543), 21 जून 2009 से प्रभावी

एस धामी (27773), 20 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

जी थॉमस (27292), 13 मार्च 2009 से प्रभावी

आर खरे (27294), 21 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

एस परेरा (28168), 05 जनवरी 2010 से प्रभावी

एन विजय कुमार

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3(डी)

-----

वायु सेना

सं. 91, दिनांक 1 फरवरी 2011--माननीय राष्ट्रपति महोदय,  
निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

फ्ला अफ से फ्ला लेफ्ट के मूल रैंक पर

अल्प-सेवा कमीशन

प्रशासन शाखा

जे पी मठपाल (29292), एम के शुक्ला (29293), 15 दिसम्बर  
2008 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

जी जी येहाले (29296), वाई भारद्वाज (29298), ए त्यागी  
(29295), 15 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

लेखा शाखा

डी गुप्ता (29299), 15 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

ए मुखोपाध्याय (29301), पी मकेश्वर (29300), 15 दिसम्बर  
2008 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

एम पुनिया (29302), पी सचान (29311), टी अर्पणा (29305),  
आर सिंह (29310), एम हजारी (29309), ए दहिया (29308), पी  
कश्यप (29312), प्रीति (29313), यू फर्नांडिस (29304), पी बी  
देसाई (29306), एस मेमम (29307), पी एस उन्निकृष्णन (29303),  
15 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

वाई रैना (29317), साधना (29316), के मिश्रा (29315), पी  
आर्या (29318), एस चतुर्वेदी (29319), वी हरिका (29314), 15 दिसम्बर  
2008 से प्रभावी

लेखा शाखा

डी सिंह (29322), पी कौर (29321), एस शर्मा (29320), 15 दिसम्बर  
2008 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

एन फातिमा (29324), एस यादव (29325), ए चौहान (29326),  
ए कौर (29323), 15 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

पल्लवी पोन्नप्पा (29125), 17 जून 2008 से प्रभावी

मेट शाखा

एकता बोथरा (28639), पूनम घिल्दियाल (28638), 17 जून  
2008 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

एस पात्रा (29398), एन के बाबू (29396), 02 जनवरी 2009 से  
प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

वी सिंह (29399), ए पटियाल (29400), एम लक्षकर (29401),  
एन चौहान (29402), एस त्रिपाठी (29403), एस गुप्ता (29404),  
एम बाली (29166), पी शर्मा (29406), एस राय (29409), एम  
पाठक (29410), जी सुहग (29407), एन गठानिया (29408), एस  
पुरी (29405), 02 जनवरी 2009 से प्रभावी

बी सी पटेल (29397), 03 जनवरी 2009 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

पी गिल (28798), 17 दिसम्बर 2007 से प्रभावी



कमलजीत कौर (29098), श्रुति चौहान (29101), आर संधू (29100), कविता कुमारेसन (29099), जया (29102), 17 जून 2008 से प्रभावी

ए शुक्ला (29291), डी मिश्रा (29283), एम जाखड़ (29284), ई गांधी (29289), डी दास (29286), आई अनूप (29287), एस बाल्यान (29288), एन जयसवाल (29285), 15 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

वी एम मार्टीकर  
विंग कमांडर  
संयुक्त निदेशक  
कार्मिक अफसर-3(डी)

#### रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 92, दिनांक 1 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी हुई तिथि (पूर्वाह्न) से दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड में पदोन्नति करते हैं:--

नाम श्री/श्रीमती/कु. प्रयोगशाला/स्थापना, वर्तमान ग्रेड, पदोन्नत ग्रेड, पदोन्नत ग्रेड का पे बैंड और ग्रेड पे (रु.), पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

एस रवी सेकर, एडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

बी एन श्रीधर, एडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

एम कोटी सुब्रामन्यम, एडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

सी मनी, एडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

ए टी सी नायर, एडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

एन एम राजू, एडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

गिडिअन पीअरली जानेट, एडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

एच के चन्द्र सेकर, एडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

श्री लथा जया राम, एडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

आर श्रीनिवासुलू, एडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

एन देवराजन, एडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

एस श्रीपाथी, एडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

जनार्दन हेगडे, एडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

डी आर थिम्म गोवडा, एडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

बी आर मोहन, एडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

आर चन्द्रशेखर (अनु जा), एडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,000/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

चिका नानजैह, एडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

डी रघुनाथन, एडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,000/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

एस के रविन्द्रा (अनु ज जा), एडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

के शंकर (अनु जा), एडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

एच एस भीमप्पा नाईक (अनु ज जा), एडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

एम एन सुरेश, एडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

ए के कुबेरप्पा (अनु जा), एडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

जेरोमी मार्शल, एडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

डी नागेश, एडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

सफीर अहमद, एडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

एन बालाचन्द्रन, एडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

एम अरुमुगम (अनु जा), एडीई, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

ए एम इनामदार, एडीई, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

नागराज, एडीई, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

सी टी सुर्यकला, सीईएमआईएलएसी, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010



वी वैकटेश्वरलू, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

गुरूभे सिंह, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

के वी नागेन्द्र, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

ए श्रीराम नायक (अनु ज जा), डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

पी एल वैकटेश्वर राव (अनु जा), डीएलआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

एन बालाजी, डीएलआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

नामा सत्यानारायन (अनु जा), डीएलआरएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

के पुरुषोत्तम दास, डीएलआरएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (रु. 9,300--34,800) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

वाई विमला कुमारी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 03 सितम्बर 2010

वाई भाग्य रेखा, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

अमित मजूमदार, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

के येसुपादन (अनु जा), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

पी सुरेश, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

वी यादव, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

आर पान्डुरंगम, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

एम नरेन्द्र राव, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

टी रामलू, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

ए रामाब्रह्मम्, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

जय प्रसाद (अनु जा), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

जे बालककृष्णा दास (अनु जा), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

पी राजू (अनु जा), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

बी सुदर्शन (अनु जा), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

एस बी रामा मूर्थी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

जी भाष्कर रेड्डी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

पी रामबाबू, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

पी वी एल नरसम्मा, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

वी भुवनेश्वरी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

मगन्ती रमन कुमार, डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

एम शाजहाँ, डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

जे श्रीनिवास राव (अनु जा), डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

के सुब्बा राव, डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (रु. 9,300--34,800) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

चरन सिंह (अनु जा), डीटीआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

ए एस कुचेकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

आर बी सोहनी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

जी के गौतम, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

पी आर खीरे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

वी पी अम्बेकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

ए एम करनजकार (अनु ज जा), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

वाई एस अंसारी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

एस पी घोष, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

ए जे जाधव (अनु जा), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

डी के जावले, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 09 सितम्बर 2010

ए डी बरासकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

के एस जोष, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

पी डी बोम्बे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

समी बागवान, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

सी एन दिवेकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

ए एम देशपाण्डेय, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

वी पी जगभिये (अनु जा), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

के राजू, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

ए बी डानो, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

एम एच जाधव, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

एस एम जाधव, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

ओ पी बालकणा, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

एस आर माने (अनु जा), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

एस आर हिरवे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

आर डब्ल्यू चूटे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

ए एल पुन्ड, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

जी जे चावान (अनु ज जा), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

ए एस क्षीरसागर, एचईएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

एम बी मोडगी, एचईएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

एम बी मुण्ड (अनु ज जा), एचईएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

दीपक प्रताप पाटिल, एचईएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

मुन्ना बाबू माथुर, एलएएसटीईसी, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

समर पाल सिंह (अनु जा), एलएएसटीईसी, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

रवी मित्तल, एलएएसटीईसी, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

ओम प्रकाश (अनु जा), एलएएसटीईसी, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

निता सेन, एलएएसटीईसी, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

के एन बालासुब्रामन्या, एलआरडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

बी एन सुर्यानारायण राव, एलआरडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

जे सी वैद्या (अनु जा), एलआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

डी थ्यागराज (अनु जा), एलआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

एस गोपाल, एलआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

टी जी हरीरमन, एलआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

जहीररूननिशा, एलआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

एस बेनुगोपाल, एलआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

ए वी कोपार्डी, एलआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

दक्षिण मुर्थी, एलआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

पी सी साहू, एलआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-)+रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

बी आर चन्द्रवथी (अनु जा), एलआरडीई तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (रु. 9,300--34,800/-)+ रु. 4,800/-, 09 सितम्बर 2010

बी टी जगदीश, एलआरडीई तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (रु. 9,300--34,800/-)+ रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

एम एम क्यू केरूर, एलआरडीई तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (रु. 9,300--34,800/-)+ रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

एम उदय कुमार (अनु जा), एनएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

आर एस पाण्डेय, एनएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

एल ए गवाने, एनएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

विवेक अनन्त सावन्त, एनएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800)+ रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

एस डी कीर, एनएमआरएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (9,300--34,800)+ रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

डी रत्नावथी, आरसीआई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

जी नानचरम्मा (अनु जा), आरसीआई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 06 सितम्बर 2010

जे प्रकाश नायक (अनु ज जा), आरसीआई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

जी वी रमन राव, आरसीआई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

वी शारदा देवी, आरसीआई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

जे सत्यानारायण, आरसीआई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

के उज्जवाला (अनु जा), आरसीआई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

एम राजेश (अनु जा), आरसीआई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

एस फनी बाबू, आरसीआई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

सी के तिवारी, आरसीआई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

सी सुर्या कुमार, आरसीआई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

अमिता मलिक, एसएजी, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

सी एस बजाज, एसएजी, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

अशोक कुमार (अनु जा), एसएजी, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

जे एल अठवाले (अनु जा), वीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2010

आर एन बारडे (अनु ज जा), वीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 06 सितम्बर 2010

ए आर पवार, वीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

पी यू शेजवाल, वीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2010

ए एस आहुजा, वीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

वी के रोकाडे (अनु जा), वीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

आई एच शेख, वीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

बी एस लोखन्डे, वीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

जी एम गवाडे, वीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

ए टी शेख, वीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2010

एस एन क्षीर सागर, वीआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800)+ रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

ए के जावले (अनु जा), वीआरडीई, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (9,300--34,800)+ रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

टी आर अशोक कुमार, वीआरडीई, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (9,300--34,800)+ रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2010

बी बी शर्मा  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-टीसी)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th March 2011

(ARMY BRANCH)

No. 85, dated 31st January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## INFANTRY

## THE PARACHUTE REGIMENT

## To be Sub Maj

Sub Raj Kumar (JC-412608P), 03 Dec 2009  
 Sub Virender Kumar (JC-412651W), 01 Nov 2009  
 Sub Dalvi Bhagwan Kundlik (JC-412247F), 01 Jan 2010  
 Sub Chander Singh Rathore (JC-412398A), 05 Feb 2010  
 Sub Rajbir, S C (JC-412642P), 01 Feb 2010

## To be Sub Maj (Musician)

Sub Ram Singh Katrolia (JC-412739A), 19 Apr 2010

## To be Sub

Nb Sub Har Lal Singh (JC-412778Y), 01 May 2008  
 Nb Sub Rakesh Chand Tiwari (JC-413067L), 01 Dec 2009  
 Nb Sub Nanda Ballabh (JC-413084L), 01 Dec 2009  
 Nb Sub Deepak Singh (JC-413100X), 01 Dec 2009  
 Nb Sub Tejbir Singh (JC-413122W), 01 Dec 2009  
 Nb Sub Gurdiyal Singh (JC-413125K), 01 Dec 2009  
 Nb Sub Kalyan Singh (JC-413126M), 01 Dec 2009  
 Nb Sub Sukh Pal Singh (JC-413104N), 01 Jan 2010  
 Nb Sub Rajendra Prasad (JC-413116H), 01 Jan 2010  
 Nb Sub Shyam Kishor Thapa (JC-413135N), 01 Jan 2010  
 Nb Sub Kundan Singh (JC-413136W), 01 Jan 2010  
 Nb Sub Gulshan Kumar (JC-413028M), 01 Jan 2010  
 Nb Sub Ramesh Chandra (JC-413178H), 01 Jan 2010  
 Nb Sub Ram Singh (JC-413186F), 01 Jan 2010  
 Nb Sub Udaibir (JC-413197N), 01 Jan 2010  
 Nb Sub Surender Singh (JC-413198N), 01 Jan 2010  
 Nb Sub Darshan Singh Dhaliwal (JC-413127P), 01 Jan 2010  
 Nb Sub Amar Singh Chauhan (JC-413143M), 01 Jan 2010  
 Nb Sub Deenadayalan (JC-413149N), 01 Jan 2010

Nb Sub Sawant Ashok Mahadeo (JC-413108K), 31 Jan 2010

Nb Sub More Vilas Maruti (JC-413109M), 31 Jan 2010

Nb Sub Rajesh Sharma (JC-413131X), 01 Feb 2010

Nb Sub Mohan Chand (JC-413199Y), 01 Feb 2010

Nb Sub Bhuvaneshwar Yadav (JC-413219F), 01 Feb 2010

Nb Sub Rajveer Singh Rajput (JC-413128P), 01 Feb 2010

Nb Sub Dinesh Pratap Singh (JC-413223K), 01 Feb 2010

Nb Sub Pawan Kumar (JC-413193Y), 01 Feb 2010

Nb Sub Suresh Chand (JC-413146A), 01 Feb 2010

Nb Sub Ashok Goutam Kanyal (JC-413133H), 01 Mar 2010

Nb Sub Prem Singh (JC-413132A), 01 Mar 2010

Nb Sub Vijay Kumar Thapa (JC-413181H), 01 Mar 2010

Nb Sub Amar Mall (JC-413154Y), 01 Mar 2010

Nb Sub Ranbir Singh (JC-413047X), 01 Mar 2010

Nb Sub Niranjana Singh (JC-413147H), 01 Mar 2010

Nb Sub Balbir Singh (JC-413112H), 01 Apr 2010

Nb Sub Subhash Singh (JC-413130P), 01 Apr 2010

Nb Sub Vijai Singh (JC-413213A), 01 Apr 2010

Nb Sub Nathu Ram (JC-413095X), 01 Apr 2010

Nb Sub Puran Singh (JC-413114X), 01 Apr 2010

Nb Sub GMK Reddy (JC-413204Y), 01 Apr 2010

Nb Sub Vijay Singh (JC-413180A), 01 May 2010

Nb Sub Leela Singh (JC-413200H), 01 May 2010

Nb Sub Sube Ram (JC-413092K), 01 May 2010

## To be Sub Clk (SD)

Nb Sub Clk (SD) Jaya Krishna Mahanta (JC-413141F), 01 Dec 2009

Nb Sub Clk (SD) Antony J (JC-413150H), 01 May 2010

## THE MARATHA LI

## To be Sub (GD)

Nb Sub Shinde Sadashiv Ramchandra (JC-459640P), 12 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Bedage Maruti Dhondiram (JC-459627L), 26 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 19 Oct 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Mankar Laxman Ananda (JC-459525P), 08 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 25 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Patil Bharat Pandurang (JC-459701F), 22 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 27 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Hakke Sambhaji Tukaram (JC-459611A), 30 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Arjun Nana Shinde (JC-459641X), 15 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Tarmode Mohan Dadarao (JC-459642A), 12 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Salunke Dilip Keshav (JC-459697K), 08 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Khade Tanaji Gundappa (JC-459765M), 06 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Kumar Gawade Vithal Ramchandra (JC-459775W), 23 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Bhagwat Dattatray Maruti (JC-459671P), 16 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 18 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Awadesh Kumar Verma (JC-459717M), 08 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Deepak Jairam Chavan (JC-459742L), 14 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Mohan Ramaji Desai (JC-459791N), 21 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Waskar Nandu Joti (JC-459778K), 23 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Ingale Sanjay Bandu (JC-459647Y), 26 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 19 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Kadam Vijay Jagannath (JC-459648F), 20 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Pingle Anandrao Ramchandra (JC-459695Y), 08 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Patil Tanaji Sakharam (JC-459720M), 28 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Sapate Anil Murlidhar (JC-459725L), 07 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Mohd Ashraf Sheikh, SM (JC-459714Y), 08 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Yadav Dilip Vasant (JC-459638X), 08 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Vijay Kumar Sambhaji Patil (JC-459732F), 01 May 2010

Nb Sub Bhikaji Mahadev Khot (JC-459755H), 03 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay & allces)

To be Sub Clk (SD)

Nb Sub Clk (SD) Sonune Haridas Ramchandra (JC-459632W), 01 May 2010

Nb Sub Clk (SD) Harish Chandra (JC-459633Y), 01 May 2010

To be Nb Sub (GD)

Nb Sub Chungadi Sanjay Pandurang (JC-459614N), 15 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay & allces)



Nb Sub Hanif Ali (JC-459583Y), 04 Dec 2009\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Gorule Sanjay Santaram (JC-459698M), 06 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 28 Sep 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Kadam Santosh Rambhau (JC-459562H), 19 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Dhuri Narayan Mahadeo (JC-459603F), 25 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Shinde Namdeo Vasudeo (JC-459616Y), 16 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Pandurang Gawas (JC-459605M), 17 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 22 Oct 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Patil Rajaram Pandurang (JC-459689L), 05 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 24 Nov 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Bandgar Bandu Vithoba (JC-459524M), 09 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Alwin R Fernandes (JC-459660H), 25 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Dethe Vilas Ganpati (JC-459663W), 02 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Sudesh Kumar (JC-459731Y), 11 Mar 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 08 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Thokal Prakash Paraji (JC-459631N), 02 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Dada Narute (JC-459666K), 25 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Veerasha Kurahatti (JC-459690A), 23 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Prakash Zende (JC-459716K), 24 Feb 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 23 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Patil Madhukar Tanaji (JC-459782M), 16 Mar 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Satappa Kotabagi (JC-459785A), 11 Mar 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Kesarkar Pandit Ramu (JC-459786H), 11 Mar 2010\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

To be Sub Clk (SD)

Nb Sub Clk (SD) Kristi Francis (JC-459609H), 01 Feb 2010

Nb Sub Clk (SD) Chavan Rajaram Shankar (JC-459610X), 19 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Nb Sub Clk (SD) Tupasoundarya Ashok Ramchandra (JC-459626H), 02 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Mar 2010 without effect on pay & allces)

To be Sub (RT)

Nb Sub (RT) Shri Krishan Pathak (JC-458570P), 01 Feb 2010

#### THE PUNJAB REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Sukhwant Singh (JC-429302H), 01 May 2010

To be Sub

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-430282M), 01 Sep 2008

Nb Sub Sher Singh Thakur (JC-430325N), 27 Dec 2009

Nb Sub Mahabir Parshad (JC-430248M), 01 Mar 2010

Nb Sub Davinder Singh (JC-430018Y), 01 Apr 2010

Nb Sub Rajbir Singh (JC-430135K), 01 Apr 2010	I GR
Nb Sub Subhash Chand (JC-430264K), 01 Apr 2010	To be Sub Maj
Nb Sub Kuldeep Singh (JC-430294F), 01 Apr 2010	Sub/Clk Janak Chand Rajan (JC-602155L), now Sub/ Maj Clk wef 01 Jan 2010
Nb Sub Baldev Singh (JC-430195Y), 01 May 2010	To be Sub
Nb Sub Shadi Lal (JC-430223A), 01 May 2010	Nb Sub Puspa Bahadur Gurung (JC-602738N), 04 Dec 2009
Nb Sub Balvir Singh (JC-430225L), 01 May 2010	(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 04 Nov 2009)
Nb Sub Jagdish Chand (JC-430380M), 01 May 2010	Nb Sub (Clk) Shree Chand Singh (JC-602700K), 01 Dec 2009
Nb Sub Raghbir Singh (JC-430322H), 01 Oct 2008	(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 24 Nov 2009)
Nb Sub Partap Singh (JC-430196F), 01 Mar 2010	Nb Sub (Clk) Chet Ram Singh (JC-602702P), 11 Dec 2009
Nb Sub Rajender Singh (JC-430244W), 01 May 2010	(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Dec 2009)
Nb Sub Kulwant Singh (JC-430171P), 01 Apr 2010	Nb Sub Man Bahadur Pun (JC-602740L), 19 Dec 2009
Nb Sub Kuldip Kumar (JC-430304A), 01 Apr 2010	(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Dec 2009)
Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-430328K), 01 Apr 2010	Nb Sub Gupta Bahadur Gurung (JC-602759K), 07 Dec 2009
To be Sub Maj	(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Dec 2009)
Sub Dharam Pal (JC-429453F), 01 Mar 2010	Nb Sub Hem Bahadur Gurung (JC-602767H), 23 Dec 2009
To be Sub	(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Dec 2009)
Nb Sub Tarsem Lal (JC-430206A), 01 Nov 2009	Nb Sub Purna Bahadur Rana (JC-602723L), 23 Dec 2009
Nb Sub Shyam Sunder (JC-429907K), 01 Apr 2010	(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Dec 2009)
Nb Sub Vijay Kumar (JC-429909P), 01 Apr 2010	Nb Sub Chakra Bahadur Thapa (JC-602781P), 01 Jan 2010
Nb Sub Jagjit Singh (JC-430003W), 01 Apr 2010	Nb Sub Kul Bahadur Shrestha (JC-602782X), 01 Jan 2010
Nb Sub Gurpal Singh (JC-430019F), 01 Apr 2010	Nb Sub Kem Bahadur Ale (JC-602773W), 21 Jan 2010
Nb Sub Faquir Chand (JC-430219X), 01 Apr 2010	(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jan 2010)
Nb Sub Balbinder Singh (JC-430116Y), 01 Apr 2010	Nb Sub (Clk) Rajendra Singha (JC-602710N), 15 Jan 2010
Nb Sub Rakesh Kumar (JC-430179F), 01 Apr 2010	(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jan 2010)
Nb Sub Hukam Chand (JC-430194W), 01 Apr 2010	Nb Sub Mani Kumar Pun (JC-602725W), 26 Mar 2010
Nb Sub Madan Lal (JC-430284X), 01 Apr 2010	(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jan 2010)
Nb Sub Naresh Singh (JC-430250K), 01 Apr 2010	
Nb Sub Rattan Singh (JC-430290L), 01 Apr 2010	
Nb Sub Kalyan Chand (JC-430261W), 01 Apr 2010	
Nb Sub Satnam Singh (JC-429872Y), 01 Mar 2010	
Nb Sub Swaran Singh (JC-430013A), 21 Jan 2010	
Nb Sub Sava Ram (JC-430049Y), 01 Feb 2010	
Nb Sub Ranjeet Singh (JC-430062H), 01 Feb 2010	
Nb Sub Kewal Krishan (JC-430181Y), 01 Feb 2010	
Nb Sub Hira Lal (JC-430205X), 01 Sep 2009	
Nb Sub Puran Chand (JC-430360Y), 01 Jun 2009	
Nb Sub Om Parkash (JC-430374Y), 01 Jan 2010	
Nb Sub Satish Kumar Katoch (JC-430375F), 01 Feb 2010	

## LADAKH SCOUTS

## To be Sub (GD)

Nb Sub Nawang Chhultim (JC-588345K), 06 May 2009/  
01 May 2009\*

Nb Sub Sonam Dorjay (JC-588350P), 01 Jul 2009

Nb Sub Tashi Namgyal (JC-588420H), 01 Aug 2009

Nb Sub Thugjay Paljor (JC-588422N), 14 Aug 2009/  
01 Aug 2009\*

Nb Sub Gilik Rabgias (JC-588325W), 05 Aug 2009/  
01 Aug 2009\*

Nb Sub Chhering Stanzin (JC-588425F), 07 Sep 2009/  
01 Sep 2009\*

Nb Sub Tsewang Dorjai (JC-588442F), 07 Sep 2009/  
01 Sep 2009\*

Nb Sub Paldan Dawa (JC-588356W), 31 Oct 2009/  
01 Oct 2009\*

Nb Sub Raj Kumar (JC-588391Y), 01 Oct 2009

Nb Sub Tashi Nurbu, SM (JC-588443K), 01 Oct 2009

Nb Sub Thukje Rinchen (JC-588393K), 05 Nov 2009/  
01 Nov 2009\*

Nb Sub Tsetan Tashi (JC-588398H), 19 Feb 2010/  
30 Dec 2009\*

Nb Sub Sonam Nurbu (JC-588314K), 01 Mar 2010

Nb Sub Gulam Abas (JC-588346M), 01 Mar 2010

Nb Sub Tsewang Tobdan (JC-588444M), 01 Mar 2010

Nb Sub Tashi Namgial (JC-588445P), 02 Mar 2010/  
01 Mar 2010\*

Nb Sub Chhewang Rigzin (JC-588383A), 01 Mar 2010

Nb Sub Targias Chospell (JC-588385L), 01 Mar 2010

Nb Sub Lakspar Tundup (JC-588386N), 10 Mar 2010

Nb Sub Ishe Chhetan (JC-588353H), 01 Apr 2010

Nb Sub Skarma Tashi (JC-588376K), 01 May 2010

Nb Sub Rigzin Chepel (JC-588379X), 01 May 2010

## To be Sub Clk (GD)

Nb Sub (Clk) Ashok Kumar Sharma (JC-588359K),  
19 Dec 2009

Nb Sub (Clk) Kuldip Singh (JC-588360Y), 01 Mar 2010

## To be Nb Sub (GD)

Hav Nawang Namgial (No. 9923599P now JC-588502L),  
15 Feb 2009/01 Feb 2009\*

Hav Smanla Angdus (No. 9923676Y now JC-588503N),  
16 Feb 2009/01 Feb 2009\*

Hav Lobzang Tashi (No. 9923809K now JC-588509P),  
12 May 2009/17 Apr 2009\*

Hav Skarma Chhering (No. 9923119A now JC-588510K),  
25 May 2009/01 May 2009\*

Hav Chhering Stobdan (No. 9923250X now JC-  
588511M), 01 Jul 2009

Hav Tsetan Tundup (No. 9924038M now JC-588512P),  
14 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Hav Tsering Tashi (No. 9923938K now JC-588513X),  
14 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Hav Sonam Paljor (No. 9924029L now JC-588514A),  
01 Aug 2009/02 Jul 2009\*

Hav Sonam Stobgail (No. 9924243N now JC-588515H),  
01 Aug 2009

Hav Mohd Hanif (No. 9923871W now JC-588516L),  
01 Aug 2009

Hav Gurmet Dorje (No. 9923787W now JC-588517N),  
01 Aug 2009

Hav Tashi Phunchok (No. 9923815X now JC-588518W),  
01 Aug 2009

Hav Tsewang Norboo (No. 9923670X now JC-588519Y),  
05 Aug 2009/01 Aug 2009\*

Hav Tsewang Tashi (No. 9923956M now JC-588520N),  
01 Aug 2009

Hav Tsetan Galten (No. 9924083Y now JC-588521W),  
01 Sep 2009

Hav Nirmal Chand (No. 9923627W now JC-588522Y),  
01 Sep 2009

Hav Bagh Chand (No. 9923823W now JC-588523F),  
01 Oct 2009

Hav Stanzin Zangbo (No. 9923862P now JC-588524K),  
01 Oct 2009

Hav Tsering Phunchok (No. 9923889M now JC-  
588525M), 01 Oct 2009

Hav Morup Dorjai (No. 9924626A now JC-588526P),  
07 Feb 2010/08 May 2009\*

Hav Tsering Stobdan (No. 9923887F now JC-588527X),  
01 Nov 2009

Hav Sonam Phunchok (No. 9923958X now JC-588529H),  
19 Feb 2010/30 Dec 2009\*

Hav Rigzin Namgial (No. 9923782X now JC-588532H),  
03 Mar 2010/01 Mar 2010\*

Hav Prem Singh (No. 9923847A now JC-588533L),  
01 Mar 2010

Hav Tashi Angdus (No. 9923892M now JC-588534N),  
01 Mar 2010

Hav Lachham Singh (No. 9923631Y now JC-588535W),  
01 Mar 2010.

Hav Tsewang Stobgis (No. 9924004Y now JC-588536Y),  
01 Mar 2010

Hav Ghulam Hussain (No. 9924608X now JC-588537F),  
01 Mar 2010

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav (Clk) Devinder Singh Pathania (No. 15359573F now  
JC-588528A), 25 Jan 2010/19 Dec 2009\*

Hav (Clk) Tsewang Namgial (No. 9923644W now JC-  
588530X), 01 Mar 2010

\*(Granted ante date seniority without effect on pay and  
allowances)

#### THE KUMAON REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Ajay Kumar Yadav (JC-539450W), 07 Dec 2009/  
26 Nov 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef  
26 Nov 2009 without effect pay and allowances)

Sub Devraj Singh (JC-539469P), 01 Jan 2010

Sub Bijender Singh (JC-539534K), 12 Jan 2010/01 Jan  
2010\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef  
01 Jan 2010 without effect pay and allowances)

Sub Balbir Chand (JC-539217H), 13 Jan 2010

Sub Anand Singh (JC-539095K), 04 Feb 2010/01 Feb  
2010\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef  
01 Feb 2010 without effect pay and allowances)

Sub Kundan Singh (JC-539440M), 06 Apr 2010/01 Apr  
2010\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef  
01 Apr 2010 without effect pay and allowances)

#### THE NAGA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Khem Bahadur Gurung (JC-590092Y), 01 Sep 2009

Sub Hevito Sema (JC-590025N), 02 Feb 2010/01 Feb  
2010\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef  
01 Feb 2010 without effect pay and allowances)

The Kumaon Regiment

To be Sub

Nb Sub (Clk) Dinesh Chandra (JC-539985K), 06 Feb  
2009/01 Jan 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef  
01 Jan 2009 without effect pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Brijeshwar Singh (JC-540003Y), 29 Jun  
2009/07 Jun 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef  
07 Jun 2009 without effect pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Balvir Singh (JC-540004F), 08 Jul 2009/  
01 Jul 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef  
01 Jul 2009 without effect pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Satish Chandra (JC-540005K), 01 Jul 2009

Nb Sub (Clk) Kushal Singh (JC-540033W), 01 Aug 2009

Nb Sub (Clk) Khushal Singh (JC-540048Y), 23 Sep 2009/  
12 Sep 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef  
12 Sep 2009 without effect pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Sanat Kumar Mandal (JC-540056X),  
18 Oct 2009/01 Oct 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef  
01 Oct 2009 without effect pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Shov Nath Yadav (JC-540075H), 23 Oct  
2009/01 Oct 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef  
01 Oct 2009 without effect pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Ashok Kumar Saxena (JC-540119P),  
18 Dec 2009/01 Dec 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef  
01 Dec 2009 without effect pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Prem Chandra (JC-540120K), 01 Dec 2009

Nb Sub (Clk) Jitendra Kumar (JC-540132Y), 01 Dec  
2009

Nb Sub (Clk) Padam Singh (JC-540133F), 01 Jan 2010

Nb Sub (Clk) Om Prakash (JC-540134K), 01 Jan 2010

Nb Sub (Clk) Sukanta Kumar Rana (JC-540164F),  
01 Mar 2010

Nb Sub (Clk) Gurnam Singh (JC-540177Y), 01 Mar 2010

Nb Sub (Clk) Satyapal Yadav (JC-540178F), 01 Mar  
2010

Nb Sub (Clk) Neezam Kathat Khan (JC-540179K),  
01 Mar 2010

Nb Sub (Clk) Jawala Prasad Maurya (JC-540109L),  
01 Apr 2010

Nb Sub (Clk) Harish Singh Bisht (JC-540180Y), 01 Apr  
2010

## JAK LI

## To be Subs Sub Maj (GD)

- Sub (GD) Surjit Singh (JC-592544P), 05 Apr 2010  
[Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Apr 2010]
- Sub (GD) Kuldeep Raj (JC-592682W), 02 Apr 2010  
[Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Apr 2010]
- Sub (GD) Bishan Dass (JC-592758L), 01 May 2010  
[Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 May 2010]
- Sub (GD) Ravinder Singh (JC-592703F), 05 Apr 2010  
[Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Apr 2010]

## INFANTRY (11GR)

## To be Sub Maj

- Sub (Musn) Krishna Kumar Viswakarma (JC-634484P),  
23 Jun 2010

## To be Sub

- Nb Sub (Musn) Ashok Rai (JC-634843X), 24 Jun 2010
- Nb Sub (RT JCO) Satish Kumar Shrotriya (JC-634289X),  
01 Jul 2010

## JAK RIF

## To be Subs Sub Maj (GD)

- Sub Om Prakash (JC-579832H), Jak Rif, 01 Apr 2010
- Sub Devender Kumar (JC-579807K), Jak Rif, 01 May  
2010

## To be Subs Sub (GD)

- Nb Sub Ashwani Kumar (JC-580530H), Jak Rif, 01 Feb  
2010
- Nb Sub Kikar Singh (JC-580533W), Jak Rif, 01 Feb  
2010
- Nb Sub Dhian Singh (JC-580555P), Jak Rif, 01 Feb 2010
- Nb Sub Bikram Jit (JC-580644N), Jak Rif, 01 Feb 2010
- Nb Sub Rakesh Kumar (JC-580433L), Jak Rif, 02 Mar  
2010
- Nb Sub Subhash Chand (JC-580556X), Jak Rif, 01 Mar  
2010
- Nb Sub Mohd Anwar Quazi (JC-580586P), Jak Rif, 01 Mar  
2010
- Nb Sub Nar Singh Dass (JC-580348H), Jak Rif, 01 Apr  
2010

Nb Sub Shakti Singh (JC-580355Y), Jak Rif, 01 Apr  
2010

Nb Sub Desh Raj (JC-580507P), Jak Rif, 01 Apr 2010

Nb Sub Nasib Singh (JC-580534Y), Jak Rif, 01 Apr 2010

Nb Sub Bhagat Ram Bansal (JC-580608H), Jak Rif, 07 Apr  
2010

Nb Sub Sher Bahadur (JC-580613N), Jak Rif, 01 Apr  
2010

Nb Sub Govind Singh (JC-580675N), Jak Rif, 30 Apr  
2010

Nb Sub Balkar Singh (JC-580696K), Jak Rif, 05 May  
2010

## To be Subs Sub/Clk (SD)

Nb Sub/Clk Parshinder Singh Dhadwal (JC-580736A),  
Jak Rif, 01 Mar 2010

Nb Sub/Clk Rajinder Kumar (JC-580748P), Jak Rif, 01 Mar  
2010

Nb Sub/Clk Bikram Singh (JC-580749X), Jak Rif, 01 Mar  
2010

## THE SIKH REGIMENT

## To be Subs Sub Maj

Sub Pirthi Singh (JC-499002Y), 01 Jun 2010

## To be Subs Sub

Nb Sub Kulbir Singh (JC-499499F), 07 Apr 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 09 Mar  
2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surinderpal Singh (JC-499717P), 22 May 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef  
01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

## To be Sub

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-499925K), 29 Oct 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jul  
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bakshish Singh (JC-499729K), 12 Oct 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jul  
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gurdip Singh (JC-499751P), 12 Oct 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Sep  
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balwinder Singh (JC-499783X), 16 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar  
2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rajinder Singh (JC-499694Y), 12 May 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 13 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sawinder Singh (JC-499795M), 06 Jul 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gajinder Singh (JC-499819L), 07 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 12 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balbir Singh (JC-499685X), 26 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jaswinder Singh (JC-499690H), 28 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ranjit Singh (JC-499706H), 28 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 06 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

To be Sub/Clk

Nb Sub Bikram Keshari Bisoi (JC-499744Y), 01 Jul 2010

Nb Sub Shiv Kumar (JC-499724L), 01 Jul 2010

To be Sub

Nb Sub Angrej Singh (JC-499715K), 15 Apr 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 31 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ajaib Singh (JC-499522K), 14 Apr 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pashora Singh (JC-499574A), 01 Apr 2010

Nb Sub Gurinder Singh (JC-499629Y), 01 Apr 2010

Nb Sub Jagraj Singh (JC-499787N), 10 May 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagir Singh (JC-499497W), 01 May 2010

THE GARHWAL RIFLES

To be Sub Maj

Sub Rajendra Singh (JC-529287N), 07 Apr 2010/01 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Sub Ten Singh Negi (JC-529550N), 01 Apr 2010

To be Sub

Nb Sub Karan Singh (JC-530524Y), 27 Mar 2010/01 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raghubir Singh Rawat (JC-530290A), 25 Feb 2010/01 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sumerjeet (JC-530377F), 20 Feb 2010/20 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 20 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balbir Singh Negi (JC-530443Y), 20 Feb 2010/20 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 20 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Charan Singh (JC-530428K), 24 Mar 2010/05 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 05 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pyar Singh (JC-530447P), 16 Apr 2010/05 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 05 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dalbir Singh (JC-530277W), 08 Apr 2010/01 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dalbir Singh Rawat (JC-530601H), 01 Apr 2010

Nb Sub Sabar Singh (JC-530418A), 20 Apr 2010/07 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 07 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhagat Singh (JC-530317M), 20 Apr 2010/01 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surendra Singh (JC-530432M), 01 Apr 2010

Nb Sub Bijendra Singh (JC-530444F), 01 Apr 2010

Nb Sub Sabar Singh (JC-530387L), 01 Apr 2010

Nb Sub Pramod Singh Rawat (JC-530451X), 01 Apr 2010

Nb Sub Surendra Datt (JC-530452A), 01 Apr 2010

Nb Sub Virendra Kumar (JC-530475F), 01 Apr 2010

Nb Sub Sateh Singh (JC-530446M), 01 May 2010  
 Nb Sub Balbir Singh Rawat (JC-530433P), 06 May 2010/  
 01 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagdish Singh (JC-530204K), 01 May 2010

Nb Sub Mahabir Singh (JC-530231N), 01 May 2010

To be Sub/Clk (SD)

Nb Sub/Clk (SD) Madan Singh (JC-530140K), 01 Apr  
 2010

Nb Sub/Clk (SD) Ram Lal (JC-530134W), 01 Apr 2010

Nb Sub/Clk (SD) Ram Kumar Olla (JC-530141M), 01 Apr  
 2010

#### THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Shyam Sunder (JC-520009Y), 01 Jun 2010

To be Sub

Nb Sub Surinder Kumar (JC-520739K), 19 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sudhir Paul (JC-520607W), 29 Mar 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Karan Singh (JC-520474L), 21 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hakikat Singh (JC-520606N), 24 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hem Raj (JC-520627K), 10 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sita Ram (JC-520625Y), 13 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gagan Singh (JC-520626H), 13 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Uddham Singh (JC-520672W), 05 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Beli Singh (JC-520648A), 10 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Om Prakash (JC-520675K), 13 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahendar Singh (JC-520676M), 24 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rajender Kumar (JC-520677P), 19 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ravinder Kumar (JC-520660F), 19 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Madan Lal (JC-520679A), 16 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Simer Singh (JC-520668N), 12 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Naresh Kumar (JC-520686W), 08 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balinder Singh (JC-520770W), 05 Jun 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Baldev Singh (JC-520811P), 02 Jun 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Subhash Chand (JC-520812X), 28 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Surinder Kumar (JC-520813A), 08 Jun 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kamal Singh (JC-520817W), 28 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Subhash Chander (JC-520871K), 28 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Braham Lal Sharma (JC-520890P), 02 Jun 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Lalaber Singh (JC-520891X), 28 May 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Bhuvnesh Kumar (JC-520892A), 02 Jun 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kishore Kumar (JC-520666H), 07 May 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 05 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Sarjit Singh (JC-520667L), 10 May 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ram Paul (JC-520692K), 02 May 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Surjeet Singh (JC-520695X), 11 May 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ram Kumar (JC-520698L), 01 May 2010

Nb Sub Ashwani Kumar (JC-520708K), 01 May 2010

Nb Sub Romesh Kumar (JC-520742K), 25 May 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2010 without effect on pay & allowances)

To be Sub Maj Clk (SD)

Sub/Clk Hans Raj Chambial (JC-519833F), 01 Jun 2010

To be Sub Maj

Sub Balbir Singh Kajat (JC-519922A), 01 Apr 2010

Sub Des Raj (JC-519879K), 05 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 May 2010 without effect on pay & allowances)

To be Sub

Nb Sub Ajay Singh (JC-520693M), 30 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Bidhi Singh (JC-520597X), 28 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Chander Bhan Singh Jaswal (JC-520757M), 03 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ashok Kumar (JC-520598A), 28 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kewal Dass (JC-520640N), 28 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Sudesh Kumar (JC-520450F), 24 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kirpal Singh (JC-520472A), 30 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Joginder Singh (JC-520548P), 24 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kuldip Singh (JC-520473H), 24 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Jaswant Singh (JC-520570A), 01 Apr 2010

Nb Sub Sham Lal (JC-520529K), 21 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ashwani Kumar (JC-520591W), 18 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Lakhbir Singh (JC-520556N), 17 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Rajesh Kumar (JC-520557W), 17 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Mohan Lal (JC-520656Y), 20 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Janam Chand Chambyal (JC-520646P), 17 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)



Nb Sub Suresh Kumar (JC-520630K), 28 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Rajesh Kumar (JC-520631M), 28 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Davinder Singh (JC-520674F), 21 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Som Dutt Sharma (JC-520714X), 01 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Subhash Chand (JC-520678X), 03 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Daljit Singh (JC-520649H), 17 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Tilak Raj (JC-520680P), 23 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ram Singh Saini (JC-520663P), 26 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Hukam Chand (JC-520664X), 23 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-520763A), 03 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Jai Karan (JC-520639Y), 03 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Sewa Ram (JC-520628M), 01 May 2010

S ASHRAF  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 86, dated 31st January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### DEFENCE SECURITY CORPS

#### To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Rakesh Chand Sharma (JC-841564Y), 01 Oct 2010

Nb Sub Shib Sankar Laha (JC-841577W), 01 Nov 2010

Nb Sub G Radha Krishnan (JC-841578Y), 01 Nov 2010

Nb Sub Babu Lal Pal (JC-841579F), 01 Nov 2010

Nb Sub Ramesan S (JC-841580W), 01 Nov 2010

Nb Sub Ramji Lal (JC-841583K), 01 Nov 2010

Nb Sub Padam Bahadur Gurung (JC-612422P), 01 Nov 2010

PRADEEP KUMAR

Under Secy

#### AIR BRANCH

No. 87, dated 31st January 2011—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

#### INDIAN AIR FORCE

#### FLYING BRANCH

#### To be Subs Gp Capt

Rank, Name, Number, Br & Date

Gp Capt (Actg) V Ravi (18100), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) R Vridhachalem (18101), F(P), 02 Mar 2009/03 Nov 2008 (NS)

Gp Capt (Actg) WVR Rao (18111), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) AI Joshi (18112), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) SW Borle (18118), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) TA Dayasagar (18122), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) KH Suresh (18124), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) SK Mittal (17472), F(P), 16 Mar 2009/03 Nov 2008 (NS)

Gp Capt (Actg) MC Misra (17715), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) JS Hora (18105), F(P), 01 Apr 2009/03 Nov 2008 (NS)

Gp Capt (Actg) DK Taneja (18119), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) U Malik (18123), F(P), 16 Mar 2009/03 Nov 2008 (NS)

Gp Capt (Actg) RGK Kapoor (18253), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) JS Johar (18254), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) MR Anand (18257), F(P), 02 Mar 2009/  
03 Nov 2008 (NS)

Gp Capt (Actg) A Rathore (18258), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) SK Mohlah (18259), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) N Tiwari (18270), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) AK Sen (18278), F(P), 01 Dec 2008/  
03 Nov 2008 (NS)

Gp Capt (Actg) S Banerjee (18279), F(P), 16 Mar 2009/  
03 Nov 2008 (NS)

Gp Capt (Actg) A Joshi (18280), F(P), 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) BV Upadhyay (18281), F(P), 16 Mar  
2009/03 Nov 2008 (NS)

Gp Capt (Actg) GC Mishra (18288), F(P), 07 Nov 2008

Gp Capt (Actg) SK Indoria (18296), F(P), 01 Dec 2008

Gp Capt (Actg) SC D'Souza (18299), F(P), 01 Dec 2008

Gp Capt (Actg) B Saju (18300), F(P), 24 Dec 2008

Gp Capt (Actg) A Dixit (18558), F(P), 01 Mar 2009

Gp Capt (Actg) B Balachandran (18561), F(P), 02 Mar  
2009

Gp Capt (Actg) NK Dahiya (18567), F(P), 02 Mar 2009

Gp Capt (Actg) DV Wani (18568), F(P), 02 Mar 2009

Gp Capt (Actg) M Mohan (18570), F(P), 02 Mar 2009

Gp Capt (Actg) CS Malik (18576), F(P), 02 Mar 2009

Gp Capt (Actg) KRA Rao (18577), F(P), 02 Mar 2009

Gp Capt (Actg) V Bhalotra (18579), F(P), 02 Mar 2009

Gp Capt (Actg) U Kumar (18582), F(P), 01 Apr 2009

Gp Capt (Actg) KJS Dihot (18585), F(P), 01 Apr 2009

Gp Capt (Actg) AS Pathania (18594), F(P), 01 May 2009

Gp Capt (Actg) S Kaura (18598), F(P), 01 May 2009

Gp Capt (Actg) Anil Singh (18599), F(P), 01 Jun 2009

Gp Capt (Actg) EK Prasad (18600), F(P), 01 Jun 2009

Gp Capt (Actg) AR Gore (18783), F(P), 25 Sep 2009/  
01 Aug 2009 (NS)

Gp Capt (Actg) S Shrinivas (18787), F(P), 01 Sep 2009

Gp Capt (Actg) A Shukla (18793), F(P), 01 Sep 2009

Gp Capt (Actg) BM Tyagi (18795), F(P), 02 Sep 2009

Gp Capt (Actg) P Kumar (18796), F(P), 03 Sep 2009

Gp Capt (Actg) R Sinha (18797), F(P), 01 Nov 2009

AK SINGH

Dy Dir Pers (Officer)-2B

## AIR FORCE

No. 88, dated 31st January 2011—The President is  
pleased to make the following Substantive Promotions :—

### INDIAN AIR FORCE

#### AE(M) BRANCH

Sqn Ldr to be Subs Wg Cdr

Thomas V (24647), VS Madhabavi (24653), SBH Reddy  
(24648), Khan MA (24659), Sreedhar K (25058), S Vinay  
Kumar (24650), P Abraham Martin (24649), Tarhalkar PP  
(24658), Singh S (24657), Narula TS (24656), V Bhatia  
(24655), Saurabh Saksena (24651), Nishant Hoovayya  
K (24663), V Mahindrakar (24662), Hirdesh Sahu  
(24661)—wef 23 May 2009

#### AE(L) BRANCH

KM Jayant (24666), Keshav Harit (24685), Rakesh  
Gautam (24671), Arindam Sirkar Goldie (24672), AI George  
(24673), Surjeet Singh Kanyal (24704), AK Kancherla  
(24708), GV Pralhad (24677), Gupta SK (24676), Manoj  
Kumar Sharma (24675), P Saraf (24674)—wef 23 May 2009

#### AE(M) BRANCH

Singh A (24760), Shivprasad B Randad (24757),  
Harjinder Singh (24762), Rahul Saini (24761), Deorankar  
PW (24755), Mahindra Y Joshi (24754), Umang Singh  
Samyal (24751), Sanjay S Desai (24742), Manish Kumar  
(24741), Ajay M Mahajan (24766), Adnan Tauqueer (24765),  
Gupta CP (24764), Mahindrakar VN (24750), Devendra  
Kumar (24767), Sekhon JS (24739), SS Sidhu (24748),  
Jitender Farswan (24777), Dharmendra Singh (24756),  
S Balachandar (24749), F B Irfan Ansari (24763), Atul  
Madhukarrao (24759), PP Borgohain (24758), Gururaj  
Narayanappa Sanga (24747), Sajja Sunil (24774), Mantina  
Subba Raju (24773), Mahesh Gurusidappa Emmi (24772),  
Sharma YK (24745), SS Patnaik (24771), Madakkuni Bijoy  
(24744), AK Nair (24770), Reddy DVG (24865), Chenna  
Reddy VRCS (24863), Ravi Tangella (24864), Swarnkar  
Yogesh (24743), Parasaram PKC (24776), Vikram V  
Deshpande (24864)—wef 22 Nov 2009

#### AE(L) BRANCH

Amrendra Kumar Thakur (24791), Pawan Gupta (24784),  
Manohar Sanjay K Venkata (24783), ML Shreeprasad  
(24782), Ahmed Arshi (24781), SR Ware (24788), Sandeep  
Jain (24787), Muralidharan AR (24833), Jain D (24832),  
KS Rajeev (24819), Sanjeev Kumar Shah (24815), SK Sarkar  
(24814), Sanjay Prabhakar Purnik (24813), S Chenthil  
Kumar (24804), Kar SK (24803), Sanjiv Ranjan (24821),  
SRA Kiran Kumar (24820), Arindam Mazumdar (24818),  
Vikash (24825), J Ananda Kumar (24805), Raveesh Ranjan  
(24779), Manpreet Pal Singh (24812), Somanna AN (24810),  
Rao KS (24866), Amuluru Chandrasekhar (25279), Rakesh  
Thatha (24826), Karthikeyan A (24801), KS Chari (24786),  
Kunwarpal Singh (25280), Verma A (24862), Pradeep Singh  
(24857), J Angel Reuben (24808), Debbrata Biswas (24797),

Rajeev Kumar (24827), Arvind R (24796), Arun Kaushik (24823), Thirumaran M (25277), Raveendra A Anand (25278), Anirban Banerjee (24822), Abhinay Rajaram Jathar (24817), Mohanty S (24816), V Bhandari (24800), Abhay C Deshpande (24795), C Parthiban (24799), V Krishna Kumar (24809), SK Shahi (24798), Manish Saxena (24794), Tripathi RK (24792), SS Walasang (24790), Reetesh Tiwari (24789), Chandra Deep (24824), S V Kulkarni (24811), Muni Kumar P (24802)—wef 22 Nov 2009

N VIJAY KUMAR  
Wing Commander  
Joint Director  
Personnel Offrs-3(D)

#### AIR FORCE

No. 89, dated 1st February 2011—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

##### INDIAN AIR FORCE

Sqn Ldr to be Subs WG Cdr

##### F(P) BRANCH

Rahul Gupta (22944) wef 26 Sep 2009

(With notional seniority wef 18 Jun 2007)

Vikram Govind (23722), M Nair (23725)—wef 16 Dec 2008

Subs Flt Lt to be subs Sqn Ldr

##### F(P) Branch

N Rawat (27199), G Awasthi (27203), M Hooda (27204), SF Haque (27226)—wef 21 Dec 2008

##### LGS BRANCH

#### SHORT SERVICE COMMISSION

R Khare (27294)—wef 21 Dec 2008

V M MARDIKAR  
Wing Commander  
Joint Director  
Personnel Officers-3(D)

#### AIR FORCE

No. 90, dated 1st February 2011—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

##### INDIAN AIR FORCE

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

##### F(P) BRANCH

Anil Repswal (26971)—wef 30 Jun 2009

(With notional seniority wef 22 Jun 2008)

N Kumar (27220)—wef 22 Nov 2009

(With notional seniority wef 21 Dec 2008)

V Manoj (27227)—wef 13 Feb 2009

(With notional seniority wef 21 Dec 2008)

#### SHORT SERVICE COMMISSION

##### AE(L) BRANCH

Aju Kumar Revi (26896)—wef 06 Mar 2009

(With notional seniority wef 07 Jan 2008)

##### F(P) BRANCH

AA Nisal (25862)—wef 18 Dec 2005

P Bobde (26999)—wef 22 Jun 2008

P. Jha (26748)—wef 17 Jul 2009

##### AE (L) BRANCH

AS Chouhan (26870)—wef 25 Jul 2008

##### F (P) BRANCH

V Sharma (27543)—wef 21 Jun 2009

S Dhami (27773)—wef 20 Dec 2009

##### LGS BRANCH

G Thomas (27292)—wef 13 Mar 2009

R Khare (27294)—wef 21 Dec 2008

##### AE (M) BRANCH

S Pereira (28169), 05 Jan 2010

N VIJAY KUMAR  
Wing Commander  
Joint Director  
Personnel Officers-3(D)

#### AIR FORCE

No. 91, dated 1st February 2011—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

##### INDIAN AIR FORCE

Fg Offr to be Subs Flt Lt  
SHORT SERVICE COMMISSION

##### ADM BRANCH

JP Mathpal (29292), MK Shukla (29293)—wef 15 Dec 2008

##### LGS BRANCH

GG Yehale (29296), Y Bhardwaj (29298), A Tyagi (29295)—wef 15 Dec 2008

##### ACCTS BRANCH

D Gupta (No. 29299)—wef 15 Dec 2008

##### EDN BRANCH

A Mukhopadhyay (29301), P Makeshwar (29300)—wef 15 Dec 2008

## ADM BRANCH

M Punia (29302), P Sachan (29311), T Arpana (29305), R Singh (29310), M Hazary (29309), A Dahiya (29308), P Kashyap (29312), Preedhi (29313), U Fernandes (29304), PB Desai (29306), S Memon (29307), PS Unnikrishnan (29303)—wef 15 Dec 2008

## LGS BRANCH

Y Raina (29317), Sadhana (29316), K Mishra (29315), P Arya (29318), S Chaturvedi (29319), B Harika (29314)—wef 15 Dec 2008

## ACCTS BRANCH

D Singh (29322), P Kaur (29321), S Sharma (29320)—wef 15 Dec 2008

## EDN BRANCH

N Fatima (29324), S Yadav (29325), A Chauhan (29326), A Kaur (29323)—wef 15 Dec 2008

## EDN BRANCH

Pallavi Ponnappa (29125), 17 Jun 2008

## MET BRANCH

Ekta Bothra (28639), Poonam Ghildiyal (28638)—wef 17 Jun 2008

## AE(M) BRANCH

S Patra (29398), NK Babu (29396)—wef 02 Jan 2009

## AE(L) BRANCH

V Singh (29399), A Patial (29400), M Lakshkar (29401), N Chauhan (29402), S Tripathi (29403), S Gupta (29404), M Bali (29166), P Sharma (29406), S Rai (29409), M Pathak (29410), G Suhag (29407), N Gathania (29408), S Puri (29405)—wef 2 Jan 2009

## AE(L) BRANCH

BC Patel (29397)—wef 03 Jan 2009

## F(P) BRANCH

P Gill (28798)—wef 17 Dec 2007

## F(P) BRANCH

Kamaljeet Kaur (29098), Shruti Chauhan (29101), R Sandhu (29100), Kavita Kumaresan (29099), Jaya (29102)—wef 17 Jun 2008

## F(P) BRANCH

A Shukla (29291), D Mishra (29283), M Jakhar (29284), E Gandhi (29289), D Das (29286), I Anoop (29287),

S Balyan (29288), N Jaiswal (29285)—wef 15 Dec 2008

VM MARDIKAR  
Wg Cdr  
JDPO-3 (D)  
Air HQ (VB)

## DEFENCE RESEARCH DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 92, dated 1st February 2010—The President is pleased to promote the following Officers from Existing Grade wef the date (F/N) as mentioned against each :-

Name (Shri/Smt/Miss), Lab/Estt., Existing Grade, Promoted to, Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.) & Date of Charge Assumption in the Promoted Grade

S Ravi Sekar, ADE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010

BN Sridhara, ADE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010

M Koti Subramanyam, ADE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010

C Mani, ADE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010

ATC Nair, ADE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010

NM Raju, ADE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010

Gideon Pearly Janet, ADE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010

HK Chandra Sekara, ADE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

Srilatha Jayaram, ADE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

R Srinivasulu, ADE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

N Devarajan, ADE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

S Sreepathy, ADE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

Janardhana Hegde, ADE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

DR Thimme Gowda, ADE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

- BR Mohana, ADE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- R Chandrasekhar (SC), ADE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010
- Chika Nanjaiah, ADE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010
- D Raghunathan, ADE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010
- SK Ravindra (ST), ADE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010
- K Shankar (SC), ADE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010
- HS Bheemappa Naik (ST), ADE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010
- MN Suresha, ADE, STA-A, TO-B, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010
- AK Kuberappa (SC), ADE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010
- Jerome Marshal, ADE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010
- D Nagesha, ADE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010
- Safeer Ahmed, ADE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010
- N Balachandran, ADE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010
- M Arumugam (SC), ADE, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010
- AM Inamdar, ADE, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010
- Nagaraja, ADE, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010
- CT Suryakala, CEMILAC, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- K Hari Siva Narayana, CEMILAC, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- YD Meshram (SC), CEMILAC, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010
- Vandana Pandey, CEMILAC, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010
- BK Varshney, CEMILAC, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010
- Tripty Rani Bose, CEMILAC, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010
- Sukumar Yadugiri, DEBEL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010
- SP Thomas, DEBEL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- VK Mohan Prakash (ST), DEBEL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010
- AB Rahalkar, DIAT, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010
- PR Kamble (SC), DIAT, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- Muthu Manickam, DIAT, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- MA Golandaz, DIAT, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010
- Ram Pal Singh (ST), DIPR, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- V Sudhir Babu, DLRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010
- DK Raj, DLRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010
- M Kumari V, DLRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010
- GK Leela, DLRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010
- K Mohan, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- J Prameela Rani, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- G Jagat Rao (SC), DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- K Vijaya Rani (SC), DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- S Vijaya Kumari, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- G Rajya Suryam, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- Jaffar Baig, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- V Sarala Devi, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- S Sarveswar Rao (SC), DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- C Krupananda Reddy, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010
- G Ashok Kumar, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

B Jayalakshmi, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

P Annji Rao, DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

Y Madhavi, DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

V Sridhar Rao, DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

N Rama Devi, DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

J Prasad (SC), DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

VS Jagadish (SC), DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

P Venugopala Rao, DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

V Venkateswarlu (ST), DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

Gurbhey Singh, DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

KV Nagendra, DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

A Sreeram Nayak (ST), DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

PL Venkateswara Rao (SC), DLRL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010

N Balaji, DLRL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010

Nama Satyanarayana (SC), DLRL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010

K Purushotham Dass, DLRL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- , 01 Sep 2010

Y Vimala Kumari, DRDL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010

Y Bhagya Rekha, DRDL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/- , 01 Sep 2010

Amit Mazumdar, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

K Yesupadan (SC), DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

P Suresh, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

V Yadaiah, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

R Pandurangam, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

M Narender Rao, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

T Ramulu, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

A Ramabrahmam, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

Jai Prasad (SC), DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/- , 01 Sep 2010

J Balakrishna Das (SC), DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

P Raju (SC), DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

B Sudarsan (SC), DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

SV Rama Murthy, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

G Bhaskar Reddy, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

P Rambabu, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

PVL Narasamma, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

V Bhuvaneshwari, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/- , 01 Sep 2010

Maganti Ramana Kumar, DRDL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/- , 01 Sep 2010

M Shajahan, DRDL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/- , 01 Sep 2010

J Sreenivasa Rao (SC), DRDL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/- , 01 Sep 2010

K Subba Rao, DRDL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/- , 01 Sep 2010

Charan Singh (SC), DTRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/- , 01 Sep 2010

AS Kuchekar, HEMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+7,600/- , 01 Sep 2010

RB Sohoni, HEMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+7,600/- , 01 Sep 2010

GK Gautam, HEMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+7,600/- , 01 Sep 2010

P R Khire, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/- , 01 Sep 2010

VP Ambekar, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

AM Karanjkar (ST), HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

YS Ansari, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

SP Ghosh, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

AJ Jadhav (SC), HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

DK Jawale, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

AD Baraskar, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

KS Job, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

PD Bombe, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

SMI Bagwan, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

CN Diwekar, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

AM Deshpande, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

VP Gajbhiye (SC), HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

K Raju, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

AB Dange, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

MH Jadhav, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

SM Jadhav, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

OP Balakrishna, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

SR Mane (SC), HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

SR Hirve, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

RW Chute, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

AL Pund, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

GJ Chavan (ST), HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

AS Kshirsagar, HEMRL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010

MV Modgi, HEMRL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010

MB Muppud (ST), HEMRL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010

Deepak Pratap Patil, HEMRL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010

Munna Babu Mathur, LASTEC, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

Summer Pal Singh (SC), LASTEC, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

Ravi Mittal, LASTEC, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

OM Prakash (SC), LASTEC, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

Nita Sen, LASTEC, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

KN Balasubramanya, LRDE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+7,600/-, 01 Sep 2010

BN Suryanarayana Rao, LRDE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+7,600/-, 01 Sep 2010

JC Baidya (SC), LRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

D Thyagaraj (SC), LRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

S Gopal, LRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

TG Hariraman, LRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

Zaheerrunnissa, LRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

S Venugopal, LRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010

AV Koparde, LRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

Dakshina Murthy, LRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010

PC Sahu, LRDE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010

BR Chandravathi (SC), LRDE, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010

- BT Jagadish, LRDE, TA-C, TO, PB-2 (9,300—3,800/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010
- 1MQ Kerur, LRDE, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,00/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010
- M Udhaya Kumar (SC), NMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+7,600/-, 01 Sep 2010
- RS Handey, NMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010
- LA Gavne, NMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010
- Vivek Anant Savant, NMRL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010
- SD Keer, NMRL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010
- D Ratnavathi, RCI, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+7,600/-, 01 Sep 2010
- G Nancharamma (SC), RCI, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 06 Sep 2010
- J Frakash Nayak (ST), RCI, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010
- GV Ramana Rao, RCI, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010
- V Sarda Devi, RCI, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010
- J Satyanarayana, RCI, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- K Ujjwala (SC), RCI, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- M Rajesh (ST), RCI, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- S Phani Babu, RCI, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- CK Tiwari, RCI, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- C Surya Kumar, RCI, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- Amita Malik, SAG, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+7,600/-, 01 Sep 2010
- CS Bajaj, SAG, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- Ashok Kumar (SC), SAG, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- JL Athwale (SC), VRDE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+7,600/-, 01 Sep 2010
- RN Barde (ST), VRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 06 Sep 2010
- AR Pawar, VRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010
- PU Shejwal, VRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+6,600/-, 01 Sep 2010
- AS Ahuja, VRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- VK Rokade (SC), VRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- IH Shaikh, VRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- BS Lokhande, VRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- GM Gawade, VRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- AT Shaikh, VRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP+5,400/-, 01 Sep 2010
- SN Kshrisagar, VRDE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010
- AK Jawale (SC), VRDE, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010
- TR Ashok Kumar, VRDE, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP+4,800/-, 01 Sep 2010

BB-SHARMA  
Joint Director (Pers TC)